

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2010—पौष 18, शक 1931

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत प्रकोष्ठ), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (3)(एक)(दो) धारा 30 (4) (5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उप-नियमों के अनुसार जिला पंचायत, शिवपुरी के कुल 23 निर्वाचन क्षेत्रों को निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार), स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	वर्ग का विवरण	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति	05, 08, 11, 22	05, 08
2	अनुसूचित जनजाति	04, 13, 19	04, 13
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	09, 18, 06, 12, 17, 01	17, 09, 01
4	अनारक्षित	10, 14, 02, 21, 23, 03, 20, 16, 07, 15	10, 14, 02, 21, 23

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 25 की उपधारा (2),(3),(4) तथा मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 के अनुसार शिवपुरी जिले की कुल 8 जनपद पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर स्तम्भ (2) में दर्शाये जनपद पंचायत को स्तम्भ (3) में दर्शित वर्ग के लिये एवं स्तम्भ (4) में दर्शित अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	जनपद पंचायत का नाम (2)	वर्ग जिसके लिये अध्यक्ष पद आरक्षित हैं (3)	महिलाओं हेतु आरक्षित (4)
1	शिवपुरी	अ.जा.	-
2	पोहरी	अ.जा.	महिला
3	कोलारस	अनारक्षित	-
4	वदरवास	पिछड़ा वर्ग	महिला
5	करैरा	अनारक्षित	-
6	नरवर	अनारक्षित	महिला
7	पिछोर	पिछड़ा वर्ग	-
8	खनियाधाना	अ.ज.जा.	महिला

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23 (4) (5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, शिवपुरी के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार) तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	वर्ग का विवरण (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक (4)
1	अनुसूचित जाति	12, 13, 14, 17, 11	12, 14, 17
2	अनुसूचित जनजाति	24, 02, 22, 23, 05	02, 22, 23
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	03, 09, 01, 08, 19, 21	03, 09, 21
4	अनारक्षित	06, 18, 04, 10, 16, 20, 25, 15, 07	20, 25, 15, 07

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23 (4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, पोहरी के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार), तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	वर्ग का विवरण (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक (4)
1	अनुसूचित जाति	22, 06, 08, 25, 18	06, 18, 25
2	अनुसूचित जनजाति	12, 23, 21, 20	20, 21
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	01, 03, 04, 19, 05, 11	03, 04, 19
4	अनारक्षित	07, 09, 10, 16, 24, 02, 13, 14, 15, 17	02, 13, 14, 15, 17

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23 (4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, कोलारस के कुल 24 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार), स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	वर्ग का विवरण (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक (4)
1	अनुसूचित जाति	16, 21, 13, 18, 17	16, 17, 18
2	अनुसूचित जनजाति	23, 12, 01, 09	23, 01
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	20, 22, 02, 04, 05, 07	05, 07, 20
4	अनारक्षित	03, 08, 10, 15, 24, 14, 11, 19, 06	14, 11, 19, 06

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 (3) एक (दो), धारा 23(4) (5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, बदरवास के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार), तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	वर्ग का विवरण	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति	21, 08, 04, 07, 10	04, 07, 08
2	अनुसूचित जनजाति	01, 25, 02, 23, 16	01, 16, 02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	06, 12, 15, 19, 03, 09	19, 06, 12
4	अनारक्षित	05, 13, 17, 18, 22, 24, 14, 11, 20	24, 14, 11, 20

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23(4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत नरवर के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार), तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	वर्ग का विवरण	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति	20, 19, 17, 11, 24	11, 19, 24
2	अनुसूचित जन जाति	01	01
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	12, 16, 23, 21, 22, 09	22, 21, 16
4	अनारक्षित	02, 03, 06, 07, 08, 10, 14, 04, 05, 13, 15, 18, 25.	04, 05, 13, 15, 18, 25

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23(4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, करैरा के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार) तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	वर्ग का विवरण (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक (4)
1	अनुसूचित जाति	13, 06, 25, 18, 17	17, 18, 13
2	अनुसूचित जन जाति	02, 03	03
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	09, 11, 22, 14, 01, 12	14, 12, 22
4	अनारक्षित	16, 10, 15, 23, 04, 19, 08, 05, 20, 21 24, 07	08, 05, 20, 21, 24, 07

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23(4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, पिछोर के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार) तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र. (1)	वर्ग का विवरण (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक (4)
1	अनुसूचित जाति	21, 05, 06, 13	13, 21
2	अनुसूचित जन जाति	18, 17, 20	17, 20
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	04, 12, 24, 09, 19, 22	09, 12, 22
4	अनारक्षित	07, 11, 14, 10, 02, 15, 01, 03, 08 16, 25, 23.	01, 03, 08, 16, 25, 23

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23(3) एक (दो), धारा 23(4)(5) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियमों के अनुसार जनपद पंचायत, खनियाधाना के कुल 25 निर्वाचन क्षेत्रों को सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित वर्ग के लिये (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को जनसंख्या के अवरोही क्रमानुसार) तथा स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित महिलाओं के वर्ग के लिये दिनांक 23 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन सामान्य के समक्ष चक्रानुक्रम में लॉट निकाल कर आरक्षित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	वर्ग का विवरण	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति	08, 18, 12, 22	18, 12
2	अनुसूचित जनजाति	21, 01, 25	01, 25
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	04, 09, 13, 20, 17, 06	09, 06, 04
4	अनारक्षित	02, 05, 10, 11, 14, 23, 03, 07, 16, 19, 24, 15.	03, 07, 16, 19, 24, 15

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत, निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत शिवपुरी के क्षेत्र की कुल 74 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सरिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)
1. धुवानी	1. कुवंरपुर	1. खजूरी	1. जामखो
2. सुहारा	2. विलूपुरा	2. रातौर	2. करई
3. नोहरीकला	3. धोलागढ़	3. लालगढ़	3. करसेना
4. कोटा	4. तानपुर	4. कममाजकला	4. गूगरीपुरा
5. सिरसोद	5. टेहटाहिम्मतगढ़	5. सिकरावदा	5. रायश्री
6. मुढेरी	6. महेशपुर	6. टोका	6. कोडावदा
7. कांकर		7. सतनवाडाकला	7. हातोद
		8. खौंदी	8. खुटेला
		9. खोरघार	9. पिपरसमा
			10. मोहनगढ़
			11. कपराना
			12. लोहादेवी
			13. बूढ़ी बरोद
			14. करई कैरउ
			15. भावखेड़ी

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत शिवपुरी

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. कलोथरा	1. सिंह निवास	1. ईटमा	1. रायपुरधमकन
2. डोगर	2. भानगढ़	2. सूढ	2. बांसखेड़ी
3. ख्यावदाकला	3. रातिकिरार	3. वडागांव	3. डविया
4. पाडरखेड़ा	4. सेंवड़ा	4. चन्दनपुरा	4. विलोकला
5. सकलपुर	5. दादौल	5. गोपालपुर	5. बम्हारी
6. टोगरा	6. इमलिया	6. गढीबरोद	6. चिटोरा
7. गंगोरा	7. सतेरिया	7. इन्दरगढ़	7. दरौनी
		8. गुरावल	8. सुरवाया
		9. ठर्रा	9. कुशियारा
		10. करईअहमदपुर	10. बारा
			11. ठेह
			12. मझेरा
			13. सतनवाडाखुर्द

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, पोहरी के क्षेत्र की कुल 90 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सारणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. दुल्हारा	1. सापरासा	1. भटनावर	1. भदेरा
2. छर्च	2. पिपरघार	2. चकराना	2. नरैयाखेड़ी
3. महलोनी	3. वेशी	3. वीलवराकला	3. टोरियाखलसा
4. गल्थुनी	4. सालोदा	4. ठेवला	4. जाखनोद
5. आकुर्सी	5. पचीपुरा	5. भदरोनी	5. जौराई
6. वागोदा	6. वीलवरामाता	6. उपसिल	6. टोडा
7. नानोरा	7. खरई जालिम	7. अतवेई	7. धतूरा
8. भेसरावन		8. रैन	8. देवरीकला
		9. रसेरा	9. अगर्गा

(1)	(2)	(3)	(4)
		10. ककरई	10. मकलीझरा
		11. घटाई	11. हिनोतिया
			12. झिरी
			13. बेराड
			14. परिच्छा अहीर
			15. वेहटा
			16. गोवरा
			17. चांदपुर
			18. महदेवा
			19. गोदरी

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत पोहरी

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. डोभा	1. मारोरा खलसा	1. विलौआ	1. हरई
2. डिगडोली	2. खरई डावर	2. जरियाकला	2. भोराना
3. डागवर्वे	3. वेरजा	3. मालवर्वे	3. खरवाया
4. झलवासा	4. गाजीगढ़	4. खेरारवनवारीपुरा	4. ऐसवाया
5. गुरीच्छा	5. कालामढ़	5. वूडदा	5. फुलीपुर
6. वमरा	6. ग्वालिपुरा	6. खटका	6. धोरिया
7. देवरीखुर्द	7. कनाखेड़ी	7. रायपुर	7. मडखेडा
8. गोवर्धन		8. भिलोडी	8. बछोरा
9. सेवाखेड़ी		9. खौदा	9. परासरी
		10. नोन्हेटाखुर्द	10. ककरौआ
		11. पोहरी	11. बरौंद
		12. ऐचवाडा	12. कृष्णगंज
			13. दौरानी
			14. मारोराअहीर
			15. देवपुरा
			16. वेधारी
			17. केमई

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, कोलारस के क्षेत्र की कुल 68 ग्राम पंचायतों में सरपंच

पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सरिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. खरई	1. लुकवासा	1. डगोरा	1. गढ़
2. गोराटीला	2. सुआटोर	2. भडोता	2. वैडारी
3. डेहरवारा	3. गोहरी	3. पहाड़ी	3. अटारा
4. इमलावदी	4. रूहानी	4. राई	4. खोखर
5. पचावला	5. विजरावन	5. पचावली	5. कुल्हाड़ी
6. चिलावद	6. झाडेल	6. सिधराई	6. भाटी
7. तेदुआ		7. अनन्तपुर	7. धुआं
		8. नेतवास	8. चदौरिया
			9. अटरूनी
			10. चंदेनी
			11. दीगोद
			12. मढ़ीखेड़ा
			13. पनवारी

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत, कोलारस

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. सरजापुर	1. कुम्हरौआ कॉलोनी	1. टीला	1. रिजौदा
2. कार्या	2. साखनोर	2. सेसईसडक	2. गणेशखेड़ा
3. चकरा	3. उन्हाई	3. मोहराई	3. राजगढ़
4. पडोरासडक	4. गुढा	4. दीगोदी	4. डोडयाई
5. खेरोना	5. किलावनी	5. कुम्हरौआ	5. अटामानपुर
6. देहरोद	6. मकरारा	6. वसाई	6. राछी
7. लेवा		7. सेसईखुर्द	7. कोटानाका
8. वेरसिया		8. पडौदा	8. वेहटा
		9. टुडियावद	9. किशनपुर
			10. देहरदासडक
			11. मोहरा

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत, निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत वदरवास के क्षेत्र की कुल 64 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सरिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. खतौरा	1. पगारा	1. धधेरा	1. झण्डी
2. वाहंगा	2. अकाझिरी	2. वारोद	2. गिन्दोरा
3. सालोन	3. ठाटी	3. अगरा	3. मागरोल
4. मेघोनावडा	4. बूढाडोगर	4. बडोखरा	4. मुढेरी
5. विजयपुरा	5. बामोरकला	5. वेदमउ	5. टामकी
	6. अकोदा	6. अम्हारा	6. ढकरौरा
		7. कुटवारा	7. टीलाकला
		8. वरोदिया	8. बारई
			9. इचोनिया
			10. सुमेला
			11. तरावली
			12. बीजरी
			13. रिन्हाय

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें

जनपद पंचायत, वदरवास

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. सिघारई	1. श्रीपुरचक	1. रिजोदी	1. धामनटूक
2. चदोरिया	2. खजूरी	2. कुसुवन	2. अटलपुर
3. पीरोठ	3. रन्नोद	3. सुनाज	3. लालपुर
4. बामोरखुर्द	4. झुलना	4. बामोर	4. मथना
5. देहरदागणेश	5. रामपुरी	5. अलावदी	5. सडवूड
6. मडवासा	6. वरखेडाखुर्द	6. चितारा	6. विनेका
		7. इन्दार	7. सेसई
		8. माढा	8. रामगढ़
			9. खरेह
			10. ऐजवारा
			11. डगपीपरी
			12. सजाई

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, करैरा के क्षेत्र की कुल 66 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सारिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. पारागढ़	1. कारोठा	1. कडोरालोधी	1. चन्दावरा
2. निचरोली	2. सिरसोद	2. खिरियापनावली	2. बघेदरीअव्वल
3. वहादुरपुर		3. वधरासाजोर	3. मछावली
4. मामोनीखुर्द		4. डुमधना	4. ढांड
5. बडोरा		5. कुम्हरोआ	5. छिरारी
6. आंडर		6. लंगूरी	6. सलैयाकरैरा
7. सहरया		7. कुचलोन	7. दावरदेही
		8. दिदावली	8. टोडापिछोर
			9. सेमरा
			10. उडवाहा
			11. राजगढ़
			12. चौका
			13. सिल्लारपुर
			14. डामरोनखुर्द
			15. टोडाकरैरा
			16. अलगी

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत, करैरा

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. उकायला	1. कालीपहाड़ी	1. वासगढ़	1. लालपुर
2. मानोनीकला	2. अमोलपठा	2. छितीपुर	2. बम्हारी
3. दवरादिनारा		3. रहरगवां	3. थनरा
4. वेसोराकला		4. डामरोनकला	4. मुंगावली
5. टीला		5. खेराघाट	5. कुरौल
6. दिनारा		6. दवराकरैरा	6. घसारई
7. चिन्नोद		7. सिलानगर	7. सिरसोना
		8. वनगवां	8. अमोलाकेशर
		9. वरोदी	9. सलैयाडामरोन

(1)	(2)	(3)	(4)
			10. दुमदुमा
			11. आवास
			12. जुझाई
			13. नारही
			14. कुड
			15. खैराई

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र. /पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत. नरवर के क्षेत्र को कुल 74 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सारिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. निजामपुर	1. राववुजुर्ग	1. हथेडा	1. गोधारी
2. झण्डा		2. तालभेव	2. चिरली
3. भीमपुर		3. खुदावली	3. फूलपुर
4. केखोदा		4. पनानेर	4. समुहा
5. फतेहपुर		5. सड	5. पीपलखाड़ी
6. इन्दरगढ़		6. टोरियाकला	6. खडीचा
7. दिहायला		7. सहदोरा	7. केरूआ
8. किशनपुर		8. चकरामपुर	8. नयागांव
		9. सिमरिया	9. भासडाकला
			10. कोडर
			11. वेरखेडा
			12. मगरोनी
			13. पपरेडू
			14. राजपुर
			15. कटेगरा
			16. नेनागिर
			17. अदोरा
			18. भैसा
			19. वडगोर

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत, नरवर

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. ख्यावदा	1. विल्हारी खुर्द	1. टोरियाखुर्द	1. ग्वालिया
2. करही	2. रोनीजा	2. ढिगवास	2. भासडाखुर्द
3. सोन्हर		3. विची	3. लमकना
4. जुझाई		4. सावोली	4. दोनी
5. बहगंवा		5. देहरेटाअव्वल	5. थरखेड़ा
6. कालीपहाड़ी		6. ठाटी	6. सिलरा
7. जनोरी		7. दावरभाट	7. वरखाडी
8. सीहोर		8. रमगढा	8. कांकर
		9. देवरीखुर्द	9. छितरी
		10. धमधोली	10. गनियार
			11. सनाई
			12. बीलोनी
			13. रामनगर
			14. जेतपुर
			15. ठकुरई
			16. नरौआ
			16. सुनारी

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. /पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, पिछोर के क्षेत्र की कुल 75 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सारिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. विरोली	1. करारखेड़ा	1. देवरीखुर्द	1. केडर
2. चंदावली	2. देवगढ़	2. सुजावनी	2. बामोरडामरोन
3. मुहार	3. वमेरा	3. डवियागोविन्द	3. कुम्हरौआ
4. उमरीकला	4. लभेडा	4. गणेशखेडा	4. मल्हावनी
5. माचमोर	5. गुरुकुदवाया	5. विजयपुर	5. छिरवाहा

(1)	(2)	(3)	(4)
6. केमखेडा		6. धोरा 7. वमना 8. नयाखेडा 9. गौचोनी	6. तिजारपुर 7. भरतपुर ईमलिया 8. शेरगढ़ 9. उमरीखुर्द 10. पारेश्वर 11. बरेला 12. दरगवां 13. पिपरो 14. ककरौआठुनी 15. चिन्नोदी 16. विलरई 15. पायगा

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें
जनपद पंचायत, पिछोर

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. वूढोनकरैरा	1. दुल्हई	1. मनपुरा	1. हिम्मतपुर
2. खडोय	2. चौमुहा	2. वीरा	2. तिघारी
3. महोवाडामरोन	3. खोड	3. नदना	3. बडेरा
4. नांद	4. कछौआ	4. पटसेरा	4. मउकुडच्छा
5. भयावन	5. पिपारा	5. ढला	5. भडोरा
6. भवरहार		6. भौती	6. भगवां
7. रूपेपुर		7. गढोईया	7. आसपुर
		8. बक्सनपुर	8. सलैया
		9. अगरा	9. सेमरी
		10. बदरखा	10. जराय
			11. बाचरोन
			12. बदरवास
			13. पडोरा
			14. खेरवास
			15. नावली
			16. नागुली

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. /पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 17 उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, खनियाधाना के क्षेत्र की कुल 101 ग्राम पंचायतों में

सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये दिनांक 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट द्वारा सारिणी में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत आरक्षित करता हूँ:-

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. देवखेड़ा	1. लहार्रा	1. सिनावलकला	1. बलोटा
2. खेरोदा	2. सुजवाहा	2. विशुनपुरा	2. तेरई
3. कमालपुर	3. महुआ	3. गजोरा	3. नदनवारा
4. हिडोरखेडी	4. खुरई	4. नगरेला	4. पडरा
5. पुरा	5. हरथोन	5. मुहारीखुर्द	5. अहरवानपुर
6. मानपुर	6. ममरोनी	6. खजरा	6. कुटावली
7. पोठियाई		7. पातीचक	7. नयागांव गजोरा
8. बघारा		8. वमोरकला	8. अछरोनी
		9. बघरवारा	9. पिपरा
		10. खडीचरा	10. गुरैया
		11. सिलपुरा	11. नदावन
		12. डवियाकला	12. ऐरावनी
			13. मंसूरी
			14. अमरपुरदेवरा
			15. रही
			16. विजरावन
			17. जुंगीपुर
			18. वूधोनराजापुर
			19. महरौली
			20. पीपलखेड़ा
			21. कालीपहाड़ी डामरोन
			22. इमलिया
			23. खिसलोनी
			24. क्यारा

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें

जनपद पंचायत, खनियाधाना

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. पनिहारा	1. पहाड़ाखुर्द	1. झालोनी	1. गोलाकोट
2. मुहारीकला	2. धरमपुरा	2. गूडर	2. मनका
3. कालीपहाड़ी चदेरी	3. धिलोदरा	3. पिपरोदाउबारी	3. निवोदा
4. डवियाजगन	4. भोडन	4. मुडिया	4. रेवई
5. नयागांव पिपरा	5. भितरगांवा	5. देवरी	5. गणेशखेड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
6. हषर्ग	6. नोहरा	6. गूगरी	6. टालापहाड़ी
7. गरेठा	7. वण्डा	7. वनखेड़ा	7. पहाड़पुर
8. रिछाई		8. चंदूपहाड़ी	8. वसाहर
		9. दिदावनी	9. सुलारकला
		10. मायापुर	10. ओडी
		11. पिपरोदाआलम	11. पचराई
		12. वीरपुर	12. कफार
		13. गताझलकुई	13. चमरौआ
			14. देवखो
			15. बुकरा
			16. बामोरखुर्द
			17. हर्षपुरा
			18. अमुहाय
			19. कुम्हरा
			20. भरसूला
			21. मुहासा
			22. रेडीहिम्मतपुर
			23. खिरकित

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्र.-पंचा.निर्वा.-आरक्षण-2009.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(4)(5) के अनुसार अन्य पिछड़ावर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13(5) (6) के लिए चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत शिवपुरी के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नं. (3) में दर्शाये गये वार्डों को अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1.	खादी	01 अ.जा. 02 अ.जा. महिला 03 अ.जा. महिला 10 अ.ज.जा. 11 अ.ज.जा. 12 अ.ज.जा. महिला 13 अ.ज.जा. महिला 04 अनारक्षित महिला 05 अनारक्षित महिला 07 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
2	गुरावल	04 अ.ज.जा.
		03 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		09 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
3	इमलिया	15 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		04 अ.ज.जा.
		07 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा.
		03 अ.ज.जा. महिला
		06 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		09 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
13 अनारक्षित महिला		
4	करसेना	10 अ.जा.
		11 अ.जा.
		07 अ.जा.
		06 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		09 अ.जा. महिला
		16 अ.ज.जा.
		15 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा. महिला
		20 अ.ज.जा. महिला
		19 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
02 अनारक्षित महिला		
05 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)
5	भानगढ	10 अ.जा.
		11 अ.जा. महिला
		07 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा.
		08 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		6
10 अ.ज.जा.		
12 अ.ज.जा.		
14 अ.ज.जा.		
04 अ.ज.जा. महिला		
05 अ.ज.जा. महिला		
07 अ.ज.जा. महिला		
11 अ.ज.जा. महिला		
13 अ.ज.जा. महिला		
01 अनारक्षित महिला		
02 अनारक्षित महिला		
09 अनारक्षित महिला		
7	कलोथरा	03 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा.
		17 अ.ज.जा.
		02 अ.ज.जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		06 अ.ज.जा. महिला
		08 अ.ज.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
12 अनारक्षित महिला		
8	गोपालपुर	14 अ.जा.

(1)	(2)	(3)
		13 अ.जा. महिला
		20 अ.ज.जा.
		18 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		06 पिछड़ा वर्ग
		08 पिछड़ा वर्ग
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		09 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
9	महेशपुर	11 अ.जा.महिला
		10 अ.जा.जा.
		07 अ.ज.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
10	पाडरखेंडा	03 अ.जा. महिला
		11 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		02 पिछड़ा वर्ग
		09 पिछड़ा वर्ग
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
11	सेवडा	10 अ.जा.
		11 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		09 अ.ज.जा.
		17 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		02 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
12	इन्दरगढ़	11 अ.जा.
		09 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		18 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		04 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
13	धौलागढ़	12 अ.जा.
		13 अ.जा.
		14 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
14	टेंहटा हिम्मतगढ़	16 अ.जा.
		05 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		06 अ.ज.जा.
		08 अ.ज.जा.
		18 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा.

(1)	(2)	(3)
		07 अ.ज.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		20 अ.ज.जा. महिला
		03 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
15	करईकेरऊ	04 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा.
		09 अ.ज.जा.
		03 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
16	करही अहमदपुर	08 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		03 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		09 अनारक्षित महिला
17	बारा	05 अ.जा.
		06 अ.जा. महिला
		11 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		08 अ.ज.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		03 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
18	कुवरपुर	06 अ.जा.
		07 अ.जा.
		08 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		17 अ.ज.जा.
		20 अ.ज.जा. महिला
		09 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
19	सूढ	05 अ.जा.
		04 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा.
		18 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
20	सिंकरावदा	10 अ.जा.
		11 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		02 पिछड़ा वर्ग
		04 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
21	कपराना	14 अ.जा.
		08 अ.जा.
		07 अ.जा.
		19 अ.जा.
		12 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		09 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		18 अ.जा. महिला
		17 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
22	जामखो	15 अ.जा.
		13 अ.जा.
		11 अ.जा.
		16 अ.जा.
		09 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		18 अ.जा. महिला
		02 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला
23	खोरधार	17 अ.जा.
		16 अ.जा.
		11 अ.जा.
		07 अ.जा.
		08 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		06 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा. महिला
		01 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
24	विलूपुरा	06 अ.जा.
		15 अ.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
25	खजूरी	11 अ.जा.
		08 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		17 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा.
		09 अ.ज.जा. महिला
		18 अ.ज.जा. महिला
		20 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
26	रातिकिरार	13 अ.जा.
		15 अ.जा.
		20 अ.जा.
		03 अ.जा.

(1)	(2)	(3)
		04 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		19 अ.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
27	मुढेरी	16 अ.जा.
		19 अ.जा.
		20 अ.जा.
		17 अ.जा. महिला
		18 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		07 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
28	गूंगरीपुरा	08 अ.जा.
		14 अ.जा.
		17 अ.जा.
		09 अ.जा.
		16 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		06 अ.जा. महिला
		07 अ.जा. महिला
		18 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
29	चिटोरा	17 अ.जा.
		08 अ.जा.
		15 अ.जा.
		09 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		01 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		30
08 अ.जा. महिला		
11 अ.जा. महिला		
14 अ.ज.जा.		
13 अ.ज.जा. महिला		
06 अ.ज.जा. महिला		
15 पिछड़ा वर्ग		
04 पिछड़ा वर्ग		
09 पिछड़ा वर्ग महिला		
07 पिछड़ा वर्ग महिला		
03 अनारक्षित महिला		
02 अनारक्षित महिला		
31	सतनवाड़ा खुर्द	07 अ.जा. महिला
		17 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		32
12 अ.जा.		

(1)	(2)	(3)
		11 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा. महिला
		05 पिछड़ा वर्ग
		07 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		09 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
33	कांकर	11 अ.जा.
		12 अ.जा.
		06 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		20 अ.ज.जा.
		17 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		16 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
34	सकलपुर	12 अ.ज.जा.
		08 अ.ज.जा.
		11 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		01 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
35	ढेह	12 अ.जा.
		06 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		08 अ.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
36	डोगर	07 अ.जा. महिला
		08 अ.ज.जा.
		09 अ.ज.जा. महिला
		04 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 अनारक्षित महिला
37	दादौल	10 अ.ज.जा.
		03 अ.ज.जा.
		06 अ.ज.जा.
		01 अ.ज.जा. महिला
		02 अ.ज.जा. महिला
		04 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		07 अनारक्षित महिला
38	रायपुर	06 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा.
		02 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा.
		01 अ.ज.जा. महिला
		03 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		04 अनारक्षित महिला
39	धुवानी	01 अ.जा. महिला
		11 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		02 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		03 पिछड़ा वर्ग
		05 पिछड़ा वर्ग
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		09 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		14 अनारक्षित महिला
40	खुटेंला	08 अ.जा. 09 अ.जा. महिला 06 अ.ज.जा. 11 अ.ज.जा. 13 अ.ज.जा. 16 अ.ज.जा. 04 अ.ज.जा. महिला 07 अ.ज.जा. महिला 12 अ.ज.जा. महिला 15 अ.ज.जा. महिला 01 अनारक्षित महिला 02 अनारक्षित महिला 03 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
41	सुरवाया	07 अ.ज.जा. 08 अ.ज.जा. महिला 09 अ.ज.जा. महिला 01 पिछड़ा वर्ग 06 पिछड़ा वर्ग महिला 05 पिछड़ा वर्ग महिला 10 अनारक्षित महिला
42	गंगौरा	08 अ.जा. 12 अ.जा. महिला 01 अ.ज.जा. 06 अ.ज.जा. 10 अ.ज.जा. 02 अ.ज.जा. महिला 07 अ.ज.जा. महिला 09 अ.ज.जा. महिला 05 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
43	करई	13 अ.जा. 07 अ.जा. 02 अ.जा. महिला 12 अ.जा. महिला 10 अ.ज.जा. 05 अ.ज.जा. महिला 09 अ.ज.जा. महिला 20 पिछड़ा वर्ग 08 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		01 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
44	कोटा	05 अ.ज.जा.
		15 अ.ज.जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		08 अ.ज.जा. महिला
		06 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		09 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
45	हातोद	20 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा.
		11 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		15 अ.ज.जा. महिला
		17 अ.ज.जा. महिला
		06 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
46	नौहरीकला	03 अ.जा.
		04 अ.जा.
		01 अ.जा. महिला
		02 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		19 अ.ज.जा.
		05 अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		06 अ.ज.जा. महिला
		07 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
47	सिंहनिवास	06 अ.जा.
		04 अ.जा. महिला
		05 अ.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		08 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
48	दरौनी	09 अ.जा.
		16 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		01 पिछड़ा वर्ग
		06 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
49	ठर्रा	11 अ.जा.
		12 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		18 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
50	कोडावदा	11 अ.जा.
		06 अ.जा.
		05 अ.जा. महिला
		07 अ.जा. महिला
		04 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
51	ख्यावदाकला	08 अ.जा.
		04 अ.जा. महिला
		06 पिछड़ा वर्ग
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
52	भावखेडी	13 अ.जा.
		16 अ.जा.
		17 अ.जा.
		18 अ.जा.
		05 अ.जा. महिला
		06 अ.जा. महिला
		07 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		15 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
53	सिरसौद	19 अ.जा.
		08 अ.जा.
		18 अ.जा.
		04 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		06 अ.जा. महिला
		07 अ.जा. महिला
		17 अ.जा. महिला
		20 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
54	टोंका	07 अ.जा.
		19 अ.जा.
		20 अ.जा. महिला
		06 अ.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
55	करमोजकला	04 अ.जा.
		09 अ.जा. महिला
		03 अ.जा. महिला
		16 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
56	लोहादेवी	14 अ.जा.
		03 अ.जा.
		02 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		07 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		09 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
57	लालगढ़	11 अ.जा.
		10 अ.जा.
		07 अ.जा. महिला
		09 अ.जा. महिला
		17 अ.ज.जा.
		15 अ.ज.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		06 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
58	तानपुर	11 अ.जा.
		12 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		04 अ.जा. महिला
		09 अ.जा. महिला
		07 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
59	ईटमा	16 अ.जा.
		17 अ.जा.
		05 अ.जा. महिला
		08 अ.जा. महिला
		09 अ.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		07 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		04 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
60	रातोर	14 अ.जा.
		15 अ.जा.
		03 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		05 पिछड़ा वर्ग
		06 पिछड़ा वर्ग
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
61	पिपरसमा	02 अ.जा.
		03 अ.जा. महिला
		08 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		04 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
62	टोगरा	13 अ.जा.
		11 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा. महिला
		16 पिछड़ा वर्ग
		09 पिछड़ा वर्ग
		03 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		07 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
63	सुहारा	14 अ.जा.
		16 अ.जा.
		05 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		08 अ.ज.जा.
		07 अ.ज.जा. महिला
		06 अ.ज.जा. महिला
		03 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		64
09 अ.जा.		
12 अ.जा.		
06 अ.जा. महिला		
07 अ.जा. महिला		
08 अ.जा. महिला		
03 पिछड़ा वर्ग		
16 पिछड़ा वर्ग		
15 पिछड़ा वर्ग महिला		
04 पिछड़ा वर्ग महिला		
01 अनारक्षित महिला		
11 अनारक्षित महिला		
02 अनारक्षित महिला		
65	कुशयारा	
		13 अ.जा.
		03 अ.जा. महिला
		04 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		07 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		05 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
66	रायश्री	12 अ.जा.
		10 अ.जा.
		11 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		05 पिछड़ा वर्ग
		08 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
67	सतेरिया	02 अ.जा.
		19 अ.जा.
		03 अ.जा. महिला
		04 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		08 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 पिछड़ा वर्ग महिला
		01 अनारक्षित महिला
		07 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
68	बोंसखेंडी	13 अ.जा.
		12 अ.जा. महिला
		01 अ.ज.जा.
		02 अ.ज.जा. महिला
		03 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		05 अनारक्षित महिला
		06 अनारक्षित महिला
		09 अनारक्षित महिला
		69
09 अ.जा. महिला		

(1)	(2)	(3)
		10 अ.जा. महिला
		12 अ.ज.जा.
		15 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		17 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		01 पिछड़ा वर्ग महिला
		02 पिछड़ा वर्ग महिला
		04 पिछड़ा वर्ग महिला
		06 अनारक्षित महिला
		08 अनारक्षित महिला
70	मझेरा	10 अ.ज.जा.
		11 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा.
		04 अ.ज.जा. महिला
		05 अ.ज.जा. महिला
		06 अ.ज.जा. महिला
		08 अ.ज.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		09 अनारक्षित महिला
		01 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
71	बूढीबरोद	06 अ.जा. महिला
		12 अ.ज.जा.
		08 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा.
		20 अ.ज.जा.
		18 अ.ज.जा. महिला
		17 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		07 अ.ज.जा. महिला
		09 अ.ज.जा. महिला
		01 अनारक्षित महिला
		02 अनारक्षित महिला
		03 अनारक्षित महिला
		05 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
72	मोंहनगढ़	17 अ.ज.जा.		
		11 अ.ज.जा		
		13 अ.ज.जा.		
		06 अ.ज.जा. महिला		
		05 अ.ज.जा. महिला		
		09 अ.ज.जा. महिला		
		07 पिछड़ा वर्ग		
		14 पिछड़ा वर्ग		
		01 पिछड़ा वर्ग महिला		
		02 पिछड़ा वर्ग महिला		
		08 अनारक्षित महिला		
		10 अनारक्षित महिला		
		03 अनारक्षित महिला		
		16 अनारक्षित महिला		
		73	गढीवरोद	12 अ.ज.जा.
				11 अ.ज.जा.
06 अ.ज.जा. महिला				
10 अ.ज.जा. महिला				
08 पिछड़ा वर्ग				
14 पिछड़ा वर्ग				
01 पिछड़ा वर्ग महिला				
02 पिछड़ा वर्ग महिला				
03 अनारक्षित महिला				
04 अनारक्षित महिला				
16 अनारक्षित महिला				
74	डविया	11 अ.जा. महिला		
		04 अ.ज.जा.		
		09 अ.ज.जा.		
		09 अ.ज.जा. महिला		
		05 अ.ज.जा. महिला		
		08 अ.ज.जा. महिला		
		02 पिछड़ा वर्ग		
		01 पिछड़ा वर्ग महिला		
		06 पिछड़ा वर्ग महिला		
		10 अनारक्षित महिला		

ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण संबंधी चार्ट जनपद पंचायत शिवपुरी

क्र.	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल वार्ड संख्या	अ.जा.वार्ड			अ.जा.वा. वार्ड			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित	
			पुरुष (4)	महिला (5)	कुल (6)	पुरुष (7)	महिला (8)	कुल (9)	पुरुष (10)	महिला (11)	कुल (12)	पुरुष (13)	महिला (14)
1	खौंदी	13	1	2,3	3	10,11	12,13	4	0	0	8,9,6	4,5,7	6
2	गुरुवल	11	0	0	0	4,3	6,5	4	9	1,2	10,11	7,8	4
3	इमलिया	16	15	10	2	4,7,16	3,6,5	6	9,11	1,8	12,14	2,13	4
4	करसेना	20	10,11,7	6,8,9	6	16,15	13,20	4	19,12	3,4,1	14,17,18	2,5	5
5	भानाढ़	16	10	11	2	6,7	5,8,16	5	12,13	2,3	9,15,14	1,4	5
6	बम्होरी	14	0	0	0	6,10,12,14	4,5,7,11,13	9	0	0	3,8	1,2,9	5
7	कलोधरा	17	0	0	0	3,14,17,2	4,5,6,8	8	13,16	1,10	15,11	7,9,12	5
8	गोपालपुर	20	14	13	2	20	18,19	3	6,8	7,9,15	1,2,3,4,11,16	5,10,12,17	10
9	महेशपुर	13	0	11	1	10	7	2	12	2,3	9,5,8,1	4,6,13	7
10	पाडरखेड़ा	14	0	3	1	11,13	10,12	4	2,9	4,8	6,14,1	7,5	5
11	सेबड़ा	19	10	11,12	3	9,17	16,19	4	2,13	4,14,8	18,15,1,5	6,7,3	7
12	इन्दराढ़	20	11,9	7,18	4	10	13,12	3	4,2	15,16,6	3,19,8,17,14	1,5,20	8
13	बोलागढ़	20	12,13	14,11	4	0	19	1	8,10	6,2,17	3,15,5,18,16,20	7,9,1,4	10
14	टेहटा हिमतागढ़	20	16	5,15	3	6,8,18,10	7,9,19,20	8	0	0	2,14,12,17	3,4,13,11,1	9
15	करईकरऊ	13	0	0	0	4,6,9	3,5,7	6	8	13,10	2,12	1,11	4
16	करही अहमदपुर	14	0	0	0	8,12,6	4,7,5,14	7	3	1,13	2,10,11	9	4
17	वारा	20	5	6	2	11,12,13	8,9,10,19	7	3,18	1,20,2	14,15,16	17,4,7	6
18	कुवरपुर	20	6,7	8,15	4	17	20	2	9,16	11,14,10	3,12,13,18,19	1,2,4,5	9
19	सूढ़	18	5	4	2	15,18,13	6,7,12,14	7	8,3	17,1,11	2,9,10,11	16	4
20	सिकराववा	16	10,11	7, 8	4	0	0	0	2,4	1,3	14,6,13,15	12,5,9,16	8
21	कपराना	19	14,8,7,19	12,13,9,10,18	9	0	0	0	17,3	1,6,2	5,11,15	4,16	5
22	जामखो	18	15,13,11,16	9,10,14,18	8	0	0	0	2,3	4,7,8	1,5,12	17,6	5
23	खोरधार	20	17,16,11,7	8,6,12,14	8	0	15	1	1,10	13,4,2	19,9,20,10	3,5	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	विलुपुरा	15	6	15	2	0	0	0	12,14	5,7	4	2,4,9,11	1,3,13,10,8	9
25	खजुरी	20	11,8	7,12	4	17,19	9,18,20	5	10,13	1,3,14	5	16,6,2,4	5,15	6
26	रातिकिरार	20	13,15,20,3	4,11,14,19	8	0	0	0	8,16	10,7,12	5	5,2,18,9	1,6,17	7
27	सुहरी	20	16,19,20	17,18,15	6	0	0	0	7,12	13,11,6	5	1,4,8,9,3	5,2,10,14	9
28	गुरीपुरा	20	8,14,17,9	16,10,6,7	8	0	0	0	18,20	12,13,3	5	1,15,11,19	2,5,4	7
29	चिटोरा	17	17,8,15	9,10,11,12	7	14	4,7	3	0	0	0	16,13,6	1,5,3,2	7
30	चन्दनपुरा	15	12	8,11	3	14	13,6	3	15,4	9,7	4	1,5,10	3,2	5
31	सतनवाड़ाखुर्द	17	0	7	1	17,14	12,13	4	8,10	2,4	4	5,16,6	1,3,9,11,15	8
32	सतनवाड़ा कला	20	16,12	11,15	4	18	19	2	5,7	3,9,14	5	8,10,13,17,20	6,2,4,1	9
33	कांकर	20	11,12	6,10	4	18,20	17,19	4	16,15	5,4,13	5	1,14,8,9	7,2,3	7
34	सकलपुर	13	0	0	0	12,18,11,13	6,7,9,10	8	0	0	0	4,2,5	1, 3	5
35	ठेह	12	12,6	7,8	4	0	9	1	10	2,3	3	4,5,11	1	4
36	डोगर	10	0	7	1	8	9	2	4	1,2	3	5,3,10	6	4
37	दाबौल	10	0	0	0	10,3,6	1,2,4,5	7	0	0	0	8,9	7	3
38	रायपुर	12	0	6	1	10,2,12	1,3,5,7	7	0	0	0	11,8,9	4	4
39	शुवानी	16	0	1	1	11,13	2,12	4	3,5	4,8	4	6,7,15,16	9,10,14	7
40	खुँला	17	8	9	2	6,11,13,16	4,7,12,15	8	0	0	0	5,13,14	1,2,3,17	7
41	सुरवासा	10	0	0	0	7	8,9	3	1	6,5	3	2,4,3	10	4
42	गंगौरा	12	8	12	2	1,6,10	2,7,9	6	0	0	0	3,4	5,11	4
43	काई	20	13,7	2,12	4	10	5,9	3	20,8,1	18,15,6	6	14,11,3,17	4,19,16	7
44	कांटा	17	0	0	0	5,15	4,8,6	5	10,9	13,1	4	2,3,11,12	7,14,16,17	8
45	हालांद	20	0	20	1	18,19,11,13,16	4,5,12,15,17	10	0	0	0	8,9,10,14,3	6,1,2,7	9
46	नौहरीकला	20	3,4	1,2,8	5	19	5,6	3	7,12	15,10,11	5	13,9,17,18,14	16,20	7
47	सिंहनवास	20	6	4,5	3	0	0	0	10,8	13,7,11	5	19,14,18,16,15,17	2,1,3,12,9	12
48	दरौनी	18	9,16	7,8,12	5	0	0	0	1,6	3,11,18	5	4,15,2,17,10	5,13,14	8
49	ठर्रा	20	11,12	7,13,14	5	0	0	0	18,20	2,5,6	5	16,3,4,9,10,15	1,8,19,17	10
50	कोडावदा	12	11,6	5,7	4	0	0	0	4	1,3	3	12,10,9	2,8	5
51	खयाबदाकला	10	8	4	2	0	0	0	6	5,10	3	3,7,9	2,1	5
52	भावखेडी	18	13,16,17,18	5,6,7,8	8	0	0	0	15,10	2,3,4	5	14,11,12	1,9	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
53	सिरसौद	20	19,8,18	4,6,7,17	7	0	0	0	20,11	3,2,14	5	13,5,9,12,16	1,10,15	8
54	टोका	20	7,19	20,6	4	0	0	0	10,16	11,2,3	5	13,15,17,4,9,14	12,5,18,8,1	11
55	करमोजकला	16	4	9,3	3	0	0	0	16,14	2,11	4	6,5,15,10,13	8,12,7,1	9
56	लोहादेवी	14	14,3	2,10	4	0	0	0	7,1	8,9	4	5,6,11	4,12,13	6
57	लालगढ	18	11,10	7,9	4	17	15,16	3	6,18	1,5,3	5	4,13,14,2	12,8	6
58	तानपुर	15	11,12	10,4,9	5	0	0	0	7,14	6,1	4	15,5,8	2,3,13	6
59	इंटमा	17	16,17	5,8,9	5	0	0	0	13,14	7,1	4	2,3,6,12	15,4,11,10	8
60	रातौर	17	14,15	3,13	4	0	0	0	5,6	2,4	4	10,12,16,9	7,17,8,1,11	9
61	पिपरस्मा	16	2	3	2	0	0	0	8,11	12,13	4	9,14,15,5,16	10,1,4,6,7	10
62	टोगरा	17	13,11	10,12	4	15	14	2	16,9	3,1	4	4,2,8	7,5,17,6	7
63	सुहारा	18	14,16	5,15	4	8	7,6	3	3,17	13,1,18	5	4,11,12	2,9,10	6
64	बिलौकला	16	10,9,12	6,7,8	6	0	0	0	3,16	15,4	4	13,14,5	1,11,2	6
65	कुरयारा	15	12,13	3,4,14	5	0	0	0	7,15	5,2	4	6,9,8	10,11,1	6
66	रायश्री	20	12,10	11,15	4	0	0	0	5,8	1,2,4	5	19,16,18,20,13,14	6,7,17,3,9	11
67	सतौरिया	19	2,19	3,4,14	5	0	13	1	12,10	18,8,6	5	11,17,15,5,16	1,7,9	8
68	बौसखेड़ी	16	13	12	2	1	2,3	3	10,15	4,14	4	16,7,8,11	5,6,9	7
69	बडगांव	20	11	9,10	3	12,15	13,14,16	5	17,20	1,2,4	5	3,18,19,7,5	6,8	7
70	मझेरा	16	0	0	0	10,11,14,16	4,5,6,8,9	9	0	0	0	15,12,7,13	1,2,3	7
71	बूढीबरोद	20	0	6	1	12,8,16,19,20	18,17,13,7,9	10	0	0	0	4,11,14,10,15	1,2,3,5	9
72	मोहनगढ	17	0	0	0	17,11,13	6,5,9	6	7,14	1,2	4	12,15,4	8,10,3,16	7
73	गडीबरोद	16	0	0	0	12,11	6,10	4	8,14	1,2	4	15,5,13,9	3,4,16,7	8
74	डविया	13	0	11	1	4,9	3,5,8	5	2	1,6	3	13,12,7	10	4
	योग	1238	105	131	236	104	130	234	115	154	269	279	220	499

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. पंचा.निर्वा.-आरक्षण-2009.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 (4) (5) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 (5) (6) के लिये चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लाट निकालकर जनपद पंचायत पोहरी के क्षेत्रांतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नम्बर (3) में दर्शाये गये वार्डों को अ. जा., अ. ज. जा., अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1	भिलोड़ी	11 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 13 अ. पि. व. 16 अ. पि. व. 9 अ. पि. व. महिला 12 अ. पि. व. महिला 15 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला
2	ठेवला	11 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 3 अ. पि. व. 2 अ. पि. व. महिला 1 अ. पि. व. महिला 5 अनारक्षित महिला
3	ककरौआ	8 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 7 अ. जा. 3 अ. जा. 13 अ. पि. व. महिला 9 अ. पि. व. महिला 5 अ. पि. व. महिला 19 अ. पि. व. 2 अ. पि. व. 18 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
4	बूड़दा	16 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला 12 अ. जा. महिला 13 अ. जा. 18 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 20 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 7 अ. पि. व. महिला 4 अ. पि. व. महिला 2 अ. पि. व. महिला 11 अ. पि. व. 1 अ. पि. व.
5	खैरारावनवारीपुरा	10 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 3 अ. जा. महिला 4 अ. जा. 19 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. 18 अ. पि. व. महिला 14 अ. पि. व. महिला 5 अ. पि. व. महिला 17 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला
6	गुरिच्छा	2 अनारक्षित महिला 9 अ. जा. महिला 1 अ. जा. महिला 12 अ. जा. 8 अ. जा. 20 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. 18 अ. पि. व. महिला 10 अ. पि. व. महिला 3 अ. पि. व. महिला 7 अ. पि. व.

(1)	(2)	(3)
		15 अ. पि. व.
		19 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
7	हरई	11 अ. जा. महिला
		5 अ. जा.
		12 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		13 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
8	गोर्वधन	4 अ. जा. महिला
		14 अ. जा.
		10 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		7 अ. पि. व.
		15 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
9	खटका	14 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		2 अ. जा.
		1 अ. जा.
		5 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. जा. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		18 अ. पि. व.
		6 अ. पि. व.
		12 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
10	बागोदा	9 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		4 अ. जा.
		11 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा.
		7 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		2 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
11	ऐचवाड़ा	1 अनारक्षित महिला
		10 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		1 अ. ज. जा. महिला
		20 अ. ज. जा.
		16 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		6 अ. पि. व.
		12 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
12	धतूरा	6 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		17 अ. जा.
		14 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व.
		15 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
13	खरईजालिम	6 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		4 अ. जा.
		12 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा.
		18 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व.

(1)	(2)	(3)
14	रायपुर	1 अ. पि. व. 14 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 8 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 17 अ. जा. 12 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 6 अ. पि. व. महिला 3 अ. पि. व. महिला 1 अ. पि. व. महिला 11 अ. पि. व. 4 अ. पि. व. 18 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला
15	खरईडावर	7 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 10 अ. पि. व. महिला 3 अ. पि. व. महिला 5 अ. पि. व. 1 अ. पि. व. 12 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला
16	गाजीगढ़	20 अ. जा. महिला 19 अ. जा. 11 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. 7 अ. पि. व. महिला 4 अ. पि. व. महिला 1 अ. पि. व. महिला 9 अ. पि. व. 3 अ. पि. व. 14 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला
17	भौराना	12 अ. जा. महिला 4 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		3 अ. जा. महिला
		13 अ. जा.
		11 अ. जा.
		6 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		9 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
18	टोड़ा	8 अ. जा. महिला
		9 अ. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा.
		4 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
19	टौरियाखालसा	15 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		17 अ. जा.
		16 अ. जा.
		5 अ. जा.
		9 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		8 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
20	जरियाकलौ	13 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		12 अ. जा.
		6 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		8 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		2 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
21	जौराई	8 अ. जा. महिला
		5 अ. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		6 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
22	धौरिया	1 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		16 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा.
		4 अ. ज. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		19 अ. पि. व.
		12 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
23	कैमई	10 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		11 अ. जा.
		2 अ. जा.
		8 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा.
		14 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		17 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		12 अनारक्षित महिला
24	रैययन	10 अ. जा. महिला
		3 अ. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
25	गोंदरी	13 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		16 अ. जा.
		1 अ. जा.
		14 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		6 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व.
		4 अ. पि. व.
		7 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
26	ककरई	6 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		8 अ. जा.
		14 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		9 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व.
		2 अ. पि. व.
		7 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
27	देवपुरा	10 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		11 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		12 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा.
		9 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व.
		2 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
28	बैराड़	9 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		8 अ. जा.
		4 अ. जा.
		13 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		2 अ. पि. व.
		16 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
29	भदेरा	14 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		16 अ. जा.
		15 अ. जा.
		13 अ. जा.
		18 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		20 अ. पि. व.
		11 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
30	कालामढ़	15 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		16 अ. जा.
		7 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		3 अ. जा.
		6 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		18 अ. पि. व.
		14 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
31	देवरीकलाँ	17 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		18 अ. जा.
		16 अ. जा.
		2 अ. जा.
		5 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		6 अ. ज. जा.
		13 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व.
		8 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
32	बरौद	14 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		13 अ. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
33	रसैरा	8 अ. जा. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		11 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
34	बीरबरामाता	3 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
		14 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		10 अ. जा.
		17 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		6 अ. पि. व.
35	बेरजा	7 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		8 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		11 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
36	खौदा	5 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		3 अ. जा.
		9 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		7 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
37	भदरोनी	12 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		13 अ. जा.
		8 अ. जा.
		6 अ. जा.
		4 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा.
		16 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		18 अ. पि. व.
		14 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
38	फुलीपुरा	5 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		4 अ. जा.
		10 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व.
		1 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
39	झलवासा	4 अ. जा. महिला
		10 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
40	नरैयाखेड़ी	9 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		11 अ. जा.
		2 अ. जा.
		12 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
41	मारोराखालसा	16 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		20 अ. जा.
		15 अ. जा.
		14 अ. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
42	दुल्हारा	11 अ. पि. व. 6 अ. पि. व. 10 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला 20 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 19 अ. जा. 17 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 12 अ. पि. व. महिला 5 अ. पि. व. महिला 2 अ. पि. व. महिला 9 अ. पि. व. 7 अ. पि. व.
43	भटनावर	11 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 15 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 16 अ. जा. 14 अ. जा. 12 अ. पि. व. महिला 9 अ. पि. व. महिला 3 अ. पि. व. महिला 19 अ. पि. व. 5 अ. पि. व. 20 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला
44	मालवर्वे	12 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 11 अ. जा. 10 अ. जा. 7 अ. पि. व. महिला 2 अ. पि. व. महिला 9 अ. पि. व. 4 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)*
45	ऐसवाया	5 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		6 अ. जा.
		16 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		2 अ. ज. जा. महिला
		1 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा.
		14 अ. ज. जा.
		13 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
		9 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		46
8 अ. जा. महिला		
9 अ. जा.		
12 अ. पि. व. महिला		
3 अ. पि. व. महिला		
11 अ. पि. व.		
7 अ. पि. व.		
10 अनारक्षित महिला		
6 अनारक्षित महिला		
5 अनारक्षित महिला		
47	नोहेटाखुर्व	1 अनारक्षित महिला
		12 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		6 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
		13 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		9 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
48	मडखेड़ा	2 अनारक्षित महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		5 अ. ज. जा. महिला
		2 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अ. ज. जा.
		6 अ. ज. जा.
		4 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
		1 अ. ज. जा.
49	बीलबराकलों	10 अ. जा. महिला
		11 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		7 अ. पि. व.
		18 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
50	अतवेई	16 अ. जा. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		15 अ. पि. व.
		12 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
51	झिरी	15 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		16 अ. जा.
		12 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		7 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
52	आकुर्सी	9 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		8 अ. जा.
		7 अ. जा.
		15 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		4 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		11 अ. पि. व.
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
53	बछौरा	6 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		15 अ. जा.
		5 अ. जा.
		7 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		8 अ. पि. व.
		14 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
54	सेवाखेड़ी	14 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		3 अ. जा.
		2 अ. जा.
		10 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व.
		9 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
55	चकराना	7 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		6 अ. जा.
		12 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा.
		3 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		4 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
56	बेंहटा	13 अ. जा. महिला		
		10 अ. जा. महिला		
		11 अ. जा.		
		1 अ. जा.		
		9 अ. पि. व. महिला		
		4 अ. पि. व. महिला		
		14 अ. पि. व.		
		2 अ. पि. व.		
		7 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		3 अनारक्षित महिला		
		57	सांपरारा	2 अ. जा. महिला
				3 अ. जा.
10 अ. पि. व. महिला				
6 अ. पि. व. महिला				
14 अ. पि. व.				
8 अ. पि. व.				
12 अनारक्षित महिला				
7 अनारक्षित महिला				
58	पचीपुरा	5 अनारक्षित महिला		
		1 अनारक्षित महिला		
		11 अ. जा. महिला		
		10 अ. जा. महिला		
		4 अ. जा. महिला		
		7 अ. जा.		
		5 अ. जा.		
		3 अ. जा.		
		17 अ. पि. व. महिला		
		6 अ. पि. व. महिला		
		15 अ. पि. व.		
		13 अ. पि. व.		
		16 अनारक्षित महिला		
59	डांगवर्चे	9 अनारक्षित महिला		
		7 अनारक्षित महिला		
		1 अनारक्षित महिला		
		11 अ. जा. महिला		
		14 अ. ज. जा. महिला		
		10 अ. ज. जा. महिला		
		8 अ. ज. जा. महिला		
		7 अ. ज. जा. महिला		
		6 अ. ज. जा. महिला		
		4 अ. ज. जा. महिला		
		16 अ. ज. जा.		
		15 अ. ज. जा.		

(1)	(2)	(3)
		9 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
		13 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
60	गोवरा	10 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		6 अ. जा.
		1 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
61	ग्वालीपुरा	10 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		11 अ. जा.
		5 अ. जा.
		12 अ. ज. जा. महिला
		1 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा.
		6 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		15 अ. पि. व.
		3 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
62	पोहरी	16 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		17 अ. जा.
		3 अ. जा.
		6 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		18 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		19 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		20 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
63	कृष्णगंज	7 अ. जा. महिला
		16 अ. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		20 अ. पि. व.
		19 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
64	जाखनोद	4 अ. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		1 अ. ज. जा. महिला
		14 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		8 अ. पि. व.
		15 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
65	विलौआ	16 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		8 अ. जा.
		6 अ. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा.
		9 अ. ज. जा.
		14 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
66	मेहदेवा	6 अ. जा. महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		14 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		17 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
67	डोभा	8 अ. जा. महिला
		9 अ. जा.
		18 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		16 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		19 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा.
		14 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		6 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
68	हिनोतिया	6 अ. जा. महिला
		5 अ. जा.
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		13 अ. पि. व.
		9 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
69	छर्च	20 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		13 अ. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		18 अ. पि. व.
		16 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
70	मेहलोनी	16 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		6 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा.
		10 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
		8 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		4 अ. ज. जा.
		14 अनारक्षित महिला
71	भैंसरावन	1 अनारक्षित महिला
		10 अ. जा. महिला
		20 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. ज. जा. महिला
		19 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा.
		14 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा.
		7 अ. ज. जा.
		5 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
72	डिगडोली	1 अनारक्षित महिला
		9 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		1 अ. ज. जा. महिला
		5 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
		10 अ. पि. व. महिला
		6 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		12 अ. पि. व.
		13 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
73	खरवाया	17 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		16 अ. जा.
		15 अ. जा.
		9 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		20 अ. पि. व.
		4 अ. पि. व.
		12 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
74	गल्थुनी	8 अ. जा. महिला		
		6 अ. जा. महिला		
		7 अ. जा.		
		9 अ. पि. व. महिला		
		2 अ. पि. व. महिला		
		12 अ. पि. व.		
		10 अनारक्षित महिला		
		3 अनारक्षित महिला		
		75	चौदपुर	10 अ. जा. महिला
				6 अ. जा. महिला
1 अ. जा. महिला				
13 अ. जा.				
9 अ. जा.				
5 अ. पि. व. महिला				
3 अ. पि. व. महिला				
11 अ. पि. व.				
7 अनारक्षित महिला				
2 अनारक्षित महिला				
76	दौरानी	20 अ. जा. महिला		
		12 अ. ज. जा. महिला		
		11 अ. ज. जा. महिला		
		9 अ. ज. जा. महिला		
		8 अ. ज. जा. महिला		
		7 अ. ज. जा. महिला		
		5 अ. ज. जा. महिला		
		3 अ. ज. जा. महिला		
		1 अ. ज. जा. महिला		
		4 अ. ज. जा. महिला		
		19 अ. ज. जा.		
		15 अ. ज. जा.		
		14 अ. ज. जा.		
		16 अ. ज. जा.		
		13 अ. ज. जा.		
		10 अ. ज. जा.		
		6 अ. ज. जा.		
		2 अ. ज. जा.		
		77	अगरा	4 अ. जा. महिला
5 अ. जा.				
14 अ. ज. जा. महिला				
10 अ. ज. जा. महिला				
8 अ. ज. जा. महिला				
13 अ. ज. जा.				
12 अ. ज. जा.				
9 अ. ज. जा.				

(1)	(2)	(3)
78	परासरी	15 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. ज. जा. महिला
		5 अ. ज. जा. महिला
		2 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा.
		9 अ. ज. जा.
		4 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा.
1 अ. ज. जा.		
79	उपसिल	7 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		14 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा. महिला
		6 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		9 अ. ज. जा.
5 अ. ज. जा.		
80	पिपरघार	2 अनारक्षित महिला
		18 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		17 अ. जा.
		16 अ. जा.
		13 अ. जा.
		14 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा.
		11 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		20 अ. पि. व.

(1)	(2)	(3)
		4 अ. पि. व.
		8 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
81	बेशी	15 अ. जा. महिला
		11 अ. जा.
		16 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व.
		2 अ. पि. व.
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
82	घटाई	7 अ. जा. महिला
		6 अ. जा.
		9 अ. ज. जा. महिला
		10 अ. ज. जा.
		8 अ. पि. व. महिला
		3 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
83	देवरीखुर्द	11 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		20 अ. जा.
		18 अ. जा.
		15 अ. जा.
		16 अ. पि. व. महिला
		12 अ. पि. व. महिला
		5 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व.
		3 अ. पि. व.
		10 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
84	बमरा	13 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		4 अ. जा.
		3 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		17 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		18 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		1 अ. पि. व. महिला
		11 अ. पि. व.
		6 अ. पि. व.
		20 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
85	मारोराअहीर	8 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		19 अ. जा.
		18 अ. जा.
		7 अ. जा.
		13 अ. पि. व. महिला
		9 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		17 अ. पि. व.
		14 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
86	परीच्छा अहीर	15 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		13 अ. जा.
		2 अ. जा.
		16 अ. पि. व. महिला
		8 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		20 अ. पि. व.
		1 अ. पि. व.
		17 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
87	कनाखेडी	8 अ. जा. महिला
		7 अ. जा.
		6 अ. पि. व. महिला

(1)	(2)	(3)
		3 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
88	सालोदा	4 अनारक्षित महिला
		14 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		20 अ. जा.
		9 अ. जा.
		13 अ. पि. व. महिला
		7 अ. पि. व. महिला
		4 अ. पि. व. महिला
		19 अ. पि. व.
		1 अ. पि. व.
		17 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
89	बैधारी	2 अनारक्षित महिला
		9 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		14 अ. जा.
		13 अ. जा.
		4 अ. पि. व. महिला
		2 अ. पि. व. महिला
		10 अ. पि. व.
		5 अ. पि. व.
		11 अनारक्षित महिला
90	मकलीझरा	6 अनारक्षित महिला
		7 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		4 अ. जा.
		2 अ. जा.
		15 अ. पि. व. महिला
		14 अ. पि. व. महिला
		16 अ. पि. व.
		8 अ. पि. व.
		17 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला

कार्यालय, जनपद पंचायत पोहरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायतों के वार्डों की जानकारी, वर्ष 2009-10

क्र (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	कुल वार्डों की संख्या (3)	अ.जा. वार्डों की संख्या क्रमांक सहित			अ.ज.जा. वार्डों की संख्या क्रमांक सहित			अ. पि. व. वार्डों की संख्या क्रमांक सहित			अनारक्षित वार्डों की संख्या क्रमांक सहित		
			पुरुष (4)	महिला (5)	योग (6)	पुरुष (7)	महिला (8)	योग (9)	पुरुष (10)	महिला (11)	योग (12)	पुरुष (13)	महिला (14)	योग (15)
1	भिलोड़ी	16	11	10	2	4	5,3	3	13,16	9,12	4	2,7,8,14	1,6,15	7
2	ठेवला	11	0	0	0	9,7	6,10,11	5	3	1,2	3	4,8	5	3
3	ककरौआ	20	3,7	6,8	4	0	0	0	2,19	5,9,13	5	14,15,11, 10,17,20,	1,4,12, 16,18	11
4	बूडदा	20	13	12	2	16,19,20	14,15, 17,18	7	1,11	2,4,7	5	6,5,8,9	3,10	6
5	खैरारावनवारीपुरा	20	4	3	2	9,10	8,19	4	1,16	5,14,18	5	7,11,13, 15,20	2,6,12 17	9
6	गुरिच्छा	20	8,12	1,9	4	14	13,20	3	7,15	3,10,18	5	4,5,11, 16,17	2,6,19	8
7	हरई	13	5	11	2	0	0	0	10	7,12	3	2,3,4,8	1,6,9,13	8
8	गोवर्धन	15	14	4	2	11	10	2	7,13	3,8	4	1,9,12	2,6,5,15	7
9	खटका	16	1,2	3,14	4	16	4,5	3	6,18	8,11	4	7,15,13	9,12	5
10	बागोदा	14	4	8,9	3	12	11	2	5,13	2,7	4	3,6,14	1,10	5
11	ऐचवाड़ा	20	19	10	2	20	1	2	6,13	16,9,14	5	15,2,3,17, 18,8	5,7,12, 4,11	11
12	धतूरा	19	17,19	1,5,6	5	0	14	1	12,15	2,7,8	5	10,11,13, 16,18	3,4,9	8
13	खरईजालिम	19	4	5,6	3	11,13	10,12	4	1,8	2,7,18	5	15,16,17, 19	3,14,9	7
14	रायपुर	18	17	7,8	3	13	12	2	4,11	1,3,6	5	9,10,14, 15,16	2,5,18	8
15	खरईडावर	15	0	7	1	8	9	2	1,5	3,10	4	4,13,14, 15	2,6,11, 12	8
16	गाजीगड़	20	19	20	2	10	11	2	3,9	1,4,7	5	2,8,15, 16,17,18	5,6,12, 13,14	11
17	भौराना	14	11,13	3,4,12	5	0	0	0	9,14	2,6	4	1,5,10	7,8	5
18	टोड़ा	17	9	8	2	11,16,17	10,12,13	6	5,7	3,4	4	1,15	2,6,14	5
19	टौरियाखालसा	17	5,16,17	2,6,15	6	0	0	0	8,10	1,9	4	7,10,13	4,11,12 14	7
20	जरियाकलॉ	15	6,15,12	5,7,13	6	0	0	0	2,11	4,8	4	10,14	1,3,9	5
21	जौराई	13	5	8	2	0	13	1	10	1,4	3	7,9,11, 12	2,3,6	7
22	धौरिया	20	15	1,2	3	4,17	3,16	4	12,19	5,9,11	5	7,13,14, 18,20	6,8,10	8
23	कैमई	18	2,11,15	1,3,10	6	13	7,8	3	17,5	4,6,14	5	9,16,18	12	4
24	रैययन	13	3	10	2	4	3	2	6	7,11	3	1,9,12	2,5,8	6
25	गोंदरी	17	1,16	9,13	4	12,15	11,14	4	4,8	3,6	4	10,17	2,5,7	5
26	ककरई	15	8	5,6	3	12,15	11,14	4	2,3	1,9	4	10,13	4,7	4
27	देवपुरा	14	11	1,10	3	4	3,12	3	8,2	7,9	4	5,6,13	14	4
28	बैराड़	20	4,8	3,9	4	0	0	0	2,11	5,10,13	5	1,7,17, 18,19,20	6,12,14, 16,15	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
29	भदरा	20	13,15,16	6,8, 14,7	7	0	0	0	11,20	2,5,18	5	3,10,12, 17,19	1,4,9	8
30	कालामढ	20	3,7,16	2,5,15	6	0	6	1	14,18	9,11,13	5	1,12,17, 19,20	4,8,10	8
31	देवरीकला	18	2,16,18	1,3,17	6	6	4,5	3	9,8	7,11,13	5	12,14,15	10	4
32	बरीद	15	13,15	10,14	4	0	0	0	5,12	8,11	4	1,3,7	2,4,6,9	7
33	रसैरा	15	0	8	1	0	0	0	11,14	4,7	4	6,10,12, 13,15	1,3,5, 9,2	10
34	बीलब्रामाता	18	10	11,14	3	18	16,17	3	6,13	2,5,8	5	1,4,9, 12,15	3,7	7
35	बेरजा	18	0	8	1	0	16	1	11,14	2,6,9	5	1,4,12,13, 15,17,18	3,5,7, 10	11
36	खौदा	12	3	1,4	3	0	0	0	10	2,9	3	6,8,11,12	5,7	6
37	भदरोनी	18	6,8,13	2,7,12	6	10	4	2	14,18	1,9,16	5	5,15,17	3,11	5
38	फुलीपुरा	15	4,15	2,5	4	0	0	0	1,9	6,10	4	12,13,14	3,7,11,8	7
39	झलवासा	12	0	4	1	0	0	0	12	6,10	3	3,9,11, 1,7	2,5,8	8
40	नरैयाखेड़ी	13	2,11	1,3,9	5	0	0	0	13	7,12	3	6,8,4	5,10	5
41	मारोराखालसा	20	14,15,20	4,13, 16	6	0	0	0	6,11	1,5,8	5	9,12,17, 18,19	2,3,7, 10	9
42	दुल्हारा	20	19	8,20	3	16,18	14,15,17	5	7,9	2,5,12	5	1,3,10, 4,13	6,11	7
43	भटनावर	20	14,16	13,15	4	0	0	0	5,19	3,9,12	5	6,10,11, 2,8,17	4,1,18, 20,7	11
44	मालवर्वे	12	10,11	6,12	4	0	0	0	9	2,7	3	5,8,3	1,4	5
45	ऐसवाया	19	6	4,5	3	3,13,14 15,17	2,10,12 111,16	11	0	0	0	8,18,19	7,9	5
46	नानांरा	15	9	8,15	3	0	0	0	7,11	3,12	4	2,4,13,14	1,5,10,6	8
47	नौन्हेटाम्बुद	15	0	12	1	3,5,8	4,6,7	6	9,11	1,13	4	10,15	2,14	4
48	मढखेड़ा	10	0	0	0	1,4,3,6,9 7,10	2,5,8,	10	0	0	0	0	0	0
49	बीलबराकला	15	0	10	1	0	0	0	7,13	2,11	4	5,9,4, 14,15	3,18,12, 1,6	10
50	अतवेई	16	0	16	1	0	0	0	12,15	5,9	4	6,14,2,4, 13,7	1,11,3, 8,10	11
51	झिरी	20	16,19	10,13, 15	5	0	0	0	7,11	3,6,12	5	18,20,1, 2,17,9	4,8,14, 5	10
52	आकुसी	16	7,8	6,9	4	0	0	0	11,14	4,15	4	2,5,1,16	3,10,13,12	8
53	बझौरा	15	5,15	4,6	4	0	0	0	8,11	1,7	4	2,12,13	3,9,14,10	7
54	सेवाखेड़ी	16	3,2	1,14	4	0	0	0	9,12	4,10	4	6,13,15,16	8,11,5,7	8
55	चकरना	14	6	5,7	3	10	11,12	3	4,13	1,3	4	2,9,14	8	4
56	वेहटा	14	1,11	10,13	4	0	0	0	2,14	4,9	4	5,8,12	3,7,6	6
57	सांपरारा	14	3	2	2	0	0	0	8,14	6,10	4	4,9,11,13	1,5,7,12	8
58	पचीपुरा	17	3,5,7	4,10,11	6	0	0	0	13,15	6,17	4	2,12,14	1,8,9,16	7
59	डांगवर्वे	18	0	11	1	5,3,9, 15,16	4,6,8,7, 10,1,4	11	0	0	0	1,17,12,18	2,13	6
60	गोवरा	13	6	5,10	3	7	1	2	11	2,8	3	3,12,13	4,9	5
61	ग्वालीपुरा	16	5,11	4,7,10	5	13	1,12	3	3,15	2,6	4	8,14,16	9	4
62	पोहरी	20	3,17	2,16	4	7	6	2	5,19	9,14,18	5	8,13,1, 12,10	11,15,20, 4	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
63	कृष्णगंज	20	16	7	2	0	0	0	19,20	3,9,11	5	13,18,1,15	2,5,8,	13
												17,12,1,4	6,4,10	
64	जाखनोद	15	0	4	1	2,14	1,3	4	8,13	7,11	4	6,9,10	5,12,15	6
65	विलौआ	16	6,8	7,16	4	9,12	10,11,13	5	0	0	0	2,4,1,15	3,5,14	7
66	मेहदेवा	17	0	6	1	12,14	7,13,15	5	5,17	1,8	4	2,10,16,3	4,9,11	7
67	डोभा	20	9	8	2	11,12,14,	10,13,15,	10	0	0	0	2,3,7,20	1,4,5,6	8
						17,19	16,18							
68	हिनोतिया	13	5	6	2	0	11	1	9,13	3,10	4	1,7,12	2,4,8	6
69	छर्च	20	13,19	12,14,	5	3	15	2	16,18	5,7,11	5	1,2,9,	4,8,10	8
				20								17,6		
70	मेहलोनी	18	0	0	0	4,10,5,	3,6,9,11,	13	0	0	0	2,13,18	1,14	5
						8,15,17	12,16,7							
71	भैंसरवन	20	0	10	1	12,14,7,	8,11,13,	12	0	0	0	4,2,6,17	1,3,5	7
						9,1,6,19	15,18,20							
72	डिगडोली	16	0	9	1	3,5	1,4,16	5	12,14	6,10	4	11,15,2,8	7,13	6
73	खरवाया	20	15,16,	5,14,	7	0	9	1	4,20	7,11,13	5	2,3,10,	1,12	7
			19	17,6								18,8		
74	गल्थुनी	12	7	6,8	3	0	0	0	12	2,9	3	1,4,11,5	3,10	6
75	चादपुर	13	9,13	1,6,10	5	0	0	0	11	3,5	3	4,8,12	3,7	5
76	दौरानी	20	0	20	1	2,10,13	1,3,5,	17	0	0	0	17,18	0	2
						14,19,6,	7,9,11,							
						15,16	12,4,8							
77	अगरा	15	5	4	2	9,12,13	8,10,14	6	0	0	0	6,1,11	2,3,7,15	7
78	परासरी	15	0	0	0	1,3,4,9,	2,5,8,10	12	0	0	0	14	6,7	3
						11,1,3	12,15							
79	उपसिल	18	0	8	1	5,9,12,	4,6,10,	13	0	0	0	1,3,7	2	4
						15,1,7,	13,1,4,							
						18	16,11							
80	पिपरघार	20	17,13,	10,12,	6	15	14	2	4,20	5,7,11	5	3,2,19,9	1,6,8	7
			16	18										
81	बेशी	16	11	15	2	0	16	1	2,12	5,8	4	10,13,14,	1,4,9,3	9
												6,7		
82	घटाई	12	6	7	2	10	9	2	1	3,8	3	2,4,12	5,11	5
83	देवरीखुर्द	20	15,18,	1,6,7,	7	0	0	0	3,14	5,12,16	5	2,13,17,	4,9,10	8
			20	11								19,8		
84	माराराअहीर	20	7,18,	1,6,8	6	0	0	0	14,17	4,9,13	5	16,20,5,	3,10,11,2	9
			19									12,15		
85	परिच्छाअहीर	20	2,13	11,12,15	5	0	0	0	1,20	4,8,16	5	14,19,6,	5,9,17,	10
												7,18,10	3	
86	चमरा	20	3,4	2,13	4	16	17	2	6,11	1,8,18	5	9,14,19,	7,12,2,	9
												9,10	15	
87	कनाखेड़ी	10	7	8	2	0	0	0	10	3,6	3	9,2,5	11,4	5
88	सालीदा	20	9,20	8,10,14	5	0	0	0	1,19	1,13	5	15,18,3,6,	2,5,12,	10
												11,16	17	
89	बैधारी	14	13,14	7,8,9	5	0	0	0	5,10	2,4	4	1,12,3	6,11	5
90	मकलीझरा	17	2,4	3,7	4	0	0	0	8,16	4,15	4	11,13,12,	5,7,1,	9
												14	10,9	
		1495	125	166	291	109	136	245	145	190	335	353	271	624

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. पंचा.निर्वा.-आरक्षण-2009.—मै, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 एक के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 (4) (5) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 (5) (6) के लिये चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में लॉट निकाल कर जनपद पंचायत, कोलारस के क्षेत्रांतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नम्बर (3) में दर्शाये गये वार्डों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :-

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1	अटामानपुर	1 अ. ज. जा. 2 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 6 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
2	पाड़ौदा	5 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
3	रूहानी	6 अ.जा. 7 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
4	देहरोद	13 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 2 अ. जा. महिला 15 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
5	सुआटोर	11 अ. जा. 16 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
6	पहाड़ी	2 अ. जा. 10 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 5 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला
7	खरई	4 अ. जा. 7 अ. जा. 8 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 19 अ. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	खरई	12 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
8	खैरोना	2 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला
9	राजगढ़	11 अ. जा. 15 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 3 अ. ज. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 18 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 8 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला
10	तेंदुआ	4 अ. जा. 11 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 2 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
	तेंदुआ	1 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
11	डेहरवारा	16 अ. जा. 19 अ. जा. 11 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 14 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
12	अटारा	4 अ. जा. 13 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
13	मढ़ीखेड़ा	5 अ. जा. 7 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
14	खोंकर	3 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
15	नेतवास	8 अ. जा.
		9 अ. जा.
		12 अ. जा.
		16 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		15 अ. जा. महिला
		17 अ. जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
6 अनारक्षित महिला		
16	कुम्हरौआ	8 अ. जा.
		10 अ. जा.
		12 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
18 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)
17	सेसई सड़क	1 अ. जा. 3 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 18 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
18	पड़ोरा सड़क	4 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला
19	बैहटा	14 अ. जा. 13 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. महिला 7 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 1 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला
20	टीला	2 अ. जा. 13 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	टीला	10 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 7 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 3 पिछड़ा वर्ग महिला 11 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
21	गौराटीला	1 अ. ज. जा. 2 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 7 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
22	बैरसिया	7 अ. जा. 17 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
23	मोहरा	3 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	मोहरा	14 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग महिला 5 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
24	चंदेनी	9 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
25	सिंघराई	5 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 10 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
26	गुढ़ा	14 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 15 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
27	मोहराई	4 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला
28	पन्वारी	2 अ. जा. 3 अ. जा. 4 अ. जा. 6 अ. जा. 8 अ. जा. 14 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 15 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 11 अनारक्षित महिला
29	चंदौरिया	10 अ. जा. 17 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 15 पिछड़ा वर्ग 19 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग महिला 18 पिछड़ा वर्ग महिला 20 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
30	भड़ौता	19 अ. जा. 11 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. महिला 20 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	भड़ोता	8 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
31	साखनौर	3 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 4 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
32	अनंतपुर	8 अ. जा. 11 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 5 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
33	रिजौदा	8 अ. जा. 9 अ. जा. 11 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	रिजौदा	16 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
34	लुकवासा	10 अ. जा. 13 अ. जा. 16 अ. जा. 11 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 15 अ. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
35	अटरूनी	5 अ. जा. 12 अ. जा. 4 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 15 अ. जा. महिला 11 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
36	टुडियावद	4 अ. जा. 7 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	टुडियावद	10 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 8 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
37	सेसईखुर्द	4 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
38	कुल्हाडी	11 अ. जा. 12 अ. जा. 10 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 20 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. महिला 14 पिछड़ा वर्ग 18 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग महिला 5 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 15 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
39	विजरावन	4 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	विजरावन	12 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 13 अनारक्षित महिला
40	बसाई	11 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 18 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 5 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला
41	धुआं	6 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 10 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 9 अनारक्षित महिला
42	किशनपुर	3 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
43	डंगौरा	8 अ. जा. 18 अ. जा. 19 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 20 अ. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
44	इमलावदी	5 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
45	पचावली	18 अ. जा. 16 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला
46	चिलावद	11 अ. जा. 10 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	चिलावद	1 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
47	दीगौदी	6 अ. जा. 9 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 7 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
48	कोटानाका	7 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला
49	कार्या	4 अ. जा. 5 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	कार्या	14 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
50	गोहरी	11 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
51	मकरारा	7 अ. जा. 11 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला
52	राई	9 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला
53	सरजापुर	4 अ. जा. 6 अ. जा. 5 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	सरजापुर	13 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 11 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
54	बैड़ारी	10 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 1 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. 2 अ. ज. जा. महिला 3 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 8 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
55	लेवा	6 अ. जा. महिला 10 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 5 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला
56	किलावनी	7 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
57	उन्हाई	12 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
58	गणेशखेड़ा	20 अ. जा. 14 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
59	डोडयाई	4 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 6 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
60	भाटी	6 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	भाटी	14 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला
61	देहरदासडक	11 अ. जा. 14 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 16 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
62	रांछी	10 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला
63	झाड़ेल	17 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	झाड़ेल	2 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
64	गढ़	16 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 2 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
65	दीगौद	3 अ. जा. 5 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 16 अ. ज. जा. 2 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 7 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
66	चकरा	2 अ. जा. 9 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 3 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
67	पचावला	7 अ. जा. 12 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 5 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
68	कुम्हरौआ कालोनी	8 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 4 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 2 अ. ज. जा. महिला 1 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 5 अनारक्षित महिला

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

कार्यालय; जनपद पंचायत कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

ग्राम पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की जानकारी, वर्ष 2009-10

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल संख्या	अ.जा. वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			अ.ज.जा. वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			पिछड़ा वर्ग वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			अनारक्षित वार्डों की संख्या एवं क्रमांक		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	अटामानपुर	17	-	-	0	1,2,4, 7,11,16	3,5,8, 9,10, 15,17	13	-	-	0	13,14	6,12	4
2	पाड़ोदा	13	-	-	0	5	6,7	3	9	1,8	3	2,10, 12,13	3,4,11	7
3	रूहानी	13	6	7,9	3	13	11,12	3	4	5,8	3	2,1,10	3	4
4	देहरोद	18	13	1,2	3	15,17	16,18	4	6,9,14	12,11	5	5,4,7,8	3,10	6
5	सुआटोर	17	11,16	2,8,17	5	13	4,5	3	1,15	3,14	4	7,10,12	6,9	5
6	पहाड़ी	11	2,10	7,11	4	-	-	0	5	6,8	3	1,9	4,3	4
7	खरई	20	4,7,8	3,16,19	6	-	-	0	11,12	5,9,14	5	1,6,13, 18,20	2,10, 15,17	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	खैरोना	13	-	2	1	12	11,13	3	8	9,10	3	1,5,6,7	4,3	6
9	राजगढ़	20	11,15	10,16	4	2	1,3	3	9,18	6,17,13	5	4,5,7 12,20	8,14,19	8
10	तेंदुआ	20	4,11	5,14	4	-	-	0	6,8	15,17,2	5	19,7,9, 10,12,16	1,3,13, 18,20	11
11	डेहरवारा	20	16,19	11,12,17	5	14	13,15	3	1,6	3,9,4	5	2,20,8, 10,18	5,7	7
12	अटारा	14	4,13	1,14	4	-	-	0	8,6	3,10	4	5,11,9	2,7,12	6
13	मढ़ीखेड़ा	15	5,7	2,3	4	-	-	0	6,9	13,15	4	1,10,12	4,8, 11,14	7
14	खोंकर	15	3	2,13	3	-	-	0	8,15	10,14	4	1,4, 12,11	6,7, 5,9	8
15	नेतवास	18	8,9, 12,16	4,5, 15,17	8	-	-	0	1,3	2,13,18	5	11,7,14	10,6	5
16	कुम्हरौआ	20	8,10,12	7,9 11,13	7	-	-	0	1,5	16,14,20	5	2,3,6, 17,19	4,15,18	8
17	सेसईसड़क	20	1,3	9,13	4	18	19	2	4,20	15,16,7	5	17,8,10, 11,14	2,5, 6,12	9
18	पडोरासड़क	13	4	5	2	6,13	7,9,10	5	-	-	0	2,8,11	1,3,12	6
19	बैहटा	15	14	13	2	12	15	2	7,11	6,1	4	10,3,9	2,4,5,8	7
20	टीला	16	2,13	5,6,14	5	10	4,9	3	7,16	1,3	4	8,12	11,15	4
21	गोराटीला	16	-	-	0	1,2,11,16	3,5,6, 10,15	9	-	-	0	4,8,12,14	7,9,13	7
22	बैरसिया	20	7,17	8,9,18	5	2,15, 16,14	4,5, 6,13	8	-	-		3,10,11,12	1,19,20	7
23	मोहरा	15	3	4,5	3	-	-	0	12,14	11,5	4	2,3,4,13	1,7,10,15	8
24	चंदेनी	12	9	4,5	3	-	-	0	1	2,8	3	7,6,10,12	3,11	6
25	सिंघराई	17	-	5	1	7,12,16	6,13,15	6	10,17	2,4	4	3,8,9	1,11,14	6
26	गुढा	15	14	9,15	3	6,7	4,5	4	12,13	3,10	4	11,8	2,1	4
27	मोहराई	11	4	5,6	3	-	-	0	9	3,7	3	10,8,11	2,1	5
28	पनवारी	16	2,3,4, 6,8,14	1,5,7,9, 13,15,16	13	-	-	0	-	-	0	10,12	11	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
29	चंदौरिया	20	10,17	6,7,9	5	-	-	0	15,19	16,18,20	5	2,1,5, 8,12,14	3,4, 11,13	10
30	भड़ौता	20	19	11	2	2,3	17,20	4	8,16	6,13,15	5	5,7,9, 12,18	1,4,10,14	9
31	साखनौर	18	3	2,8	3	4	5	2	12,17	6,11,14	5	9,10,15, 16,18	1,7,13	8
32	अनंतपुर	14	8,11	1,13,14	5	-	10	1	6,9	2,5	4	4,12	3,7	4
33	रिजौदा	17	8,9,11	4,6,10	6	-	17	1	12,16	14,15	4	2,7,5	1,3,13	6
34	लुकवासा	20	10,13,16	11,12, 14,15	7	-	-	0	9,17	3,19,6	5	1,4,20,5,8	2,7,18	8
35	अटरूनी	15	5,12,4	3,13, 14,15	7	11	10	2	-	-	0	2,6,7	1,8,9	6
36	दुडियावद	20	4,7	5,6,18	5	2,16	17,15	4	10,13	3,14,19	5	1,9,12,20	8,14	6
37	सेसईखुर्द	14	4	5,11	3	-	-	0	12,14	2,8	4	3,7,10,9	1,6,13	7
38	कुल्हाड़ी	20	11,12,10	3,13,9,8	7	20	19	2	14,18	7,5,16	5	1,2,4,6	15,17	6
39	बिजरावन	14	4	1,9	3	7,10	6,8	4	11,2	12,14	4	5,3	13	3
40	बसाई	18	11	3,10	3	12,16, 18,14	9,13, 15,17	8	-	-	0	1,2,4,6	5,7,8	7
41	धुआं	14	-	-	0	6,7,11	4,5,8,14	7	10,13	2,12	4	1,3	9	3
42	किशनपुर	15	-	-	0	3,7,10	4,5,8,9	7	6,15	1,11	4	12,13	2,14	4
43	डंगौरा	20	8,18,19	9,16,20	6	-	-	0	1,7	13,14,15	5	2,3,5, 12,11	4,6, 10,17	9
44	इमलावदी	13	5	9	2	13	12	2	11	8,10	3	1,2,3	4,6,7	6
45	पचावली	18	18	16,17	3	13,14	12,15	4	1,10	8,11	4	3,6,7,9	2,5,4	7
46	चिलावद	13	11	10	2	-	-	0	1	4,9	3	3,2,7,13	5,6,8,12	8
47	दीघौदी	16	6,9	8,10	4	-	13	1	7,11	4,12	4	1,2,15,16	3,5,14	7
48	कोटानाका	17	-	7	1	2,5,9, 11,14,15	3,10,12, 16,4,13	12	-	-	0	6,17	1,8	4
49	कार्या	16	4,5	3,8	4	7	6	2	12,14	9,11	4	1,10,16	2,13,15	6
50	गोहरी	15	11	10	2	-	-	0	12,15	3,13	4	1,4,5,9	2,6,7, 8,14	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
51	मकरारा	14	7,11	9,12	4	-	13	1	1	3,10	3	5,4,6,14	2,8	6
52	राई	14	9	4,5	3	12	10,11	3	6	8,13	3	1,2,7,14	3	5
53	सरजापुर	16	4,6	5,13,16	5	7	8	2	1,3	9,14	4	2,10,12	11,15	5
54	बैड़ारी	14	10	9	2	1,4,5	2,3,13,14	7	-	-	0	6,7,11	8,12	5
55	लेवा	13	-	6	1	10,12	9,11	4	5	3,13	3	1,7,8	2,4	5
56	किलावनी	18	7	4,5	3	-	-	0	9,12	11,14	4	1,3,6 13,16,18	2,8,10 15,17	11
57	उन्हाई	14	12	8	2	13	6,14	3	1	5,7	3	2,4,9,11	3,10	6
58	गणेशखेड़ा	20	20	14	2	5,7	6,8	4	11,15	13,17,19	5	1,3,9, 16,18	2,4,10,12	9
59	डोडयाई	15	4	2,3	3	8,11, 13,15	5,9, 12,14	8	-	-	0	1,10	6,7	4
60	भाटी	14	6	4,5	3	14	8	2	3,10	11,13	4	2,7,9	12,1	5
61	देहरदासड़क	16	11,14	4,13	4	16	15	2	3,10	2,12	4	1,6,7	5,8,9	6
62	रांछी	15	10	4	2	13,14	7,8,15	5	6,9	1,11	4	3,12	2,5	4
63	झाड़ेल	17	17	1	2	8,10	4,7,9	5	2,16	6,12	4	5,11,14	3,13,15	6
64	गढ़	16	16	1	2	8,9	7,10	4	2,13	6,11	4	4,14,15	3,5,12	6
65	दीगोद	16	3,5	4,6	4	16	2,15	3	9,11	10,12	4	1,8,13	7,14	5
66	चकरा	11	2,9	1,6	4	5	4	2	-	-	0	7,10	3,8,11	5
67	पचावला	14	7,12	6,13	4	-	-	0	9	1,5	3	2,4,8,11	3,10,14	7
68	कुम्हारौआ कालोनी	12	8	7	2	4,3,11	2,1,10,12	7	-	-	0	6,9	5	3
योग . .		1086	102	135	237	88	111	199	99	128	227	241	182	423

शिवपुरी, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र. पंचा.निर्वा.-आरक्षण-2009.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज, अधिनियम 1993 की उपधारा (4) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 (4) (5) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये चक्रानुक्रम से दिनांक 19 नवम्बर 2009 को मानस भवन, शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत, बदरवास के क्षेत्रांतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नम्बर (3) में दर्शाये गये वार्डों को

अ. जा., अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :-

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित (3)
1	मुढेरी	4 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जां. 7 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 2 अ. ज. जा. महिला 3 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला
2	रामपुरी	2 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 11 अनारक्षित महिला
3	सालोन	2 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
	सालोन	15 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 19 अ. ज. जा. महिला 20 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला
4	अगरा	3 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला
5	चन्दोरिया	11 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
6	झूलना	8 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 11 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
7	वांहगा	7 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
8	बरखेडाखुर्द	2 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला
9	अटलपुर	2 अ. जा. 3 अ. जा. 5 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 4 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 10 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
10	खजूरी	12 अ. जा. 17 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	खजूरी	11 पिछड़ा वर्ग 19 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 18 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
11	मांगरोल	5 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
12	बडोखरा	1 अ. जा. महिला 7 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 14 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
13	सुमैला	10 अ. जा. 12 अ. जा. 11 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
	सुमैला	4 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
14	बारई	15 अ. जा. 16 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 20 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
15	धामनटूक	6 अ. जा. महिला 1 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 12 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 3 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
16	बामौर	7 अ. जा. 9 अ. जा. 13 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
17	बूढाडोगर	11 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
18	चितारा	7 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 2 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
19	सडबूढ	2 अ. जा. 3 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
20	अलावदी	13 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
	अलावदी	9 पिछड़ा वर्ग महिला 10 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
21	रिजोदी	5 अ. जा. 6 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 3 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
22	बारोद	4 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 14 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 18 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 8 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
23	खतौरा	8 अ. जा. 12 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 13 पिछड़ा वर्ग 18 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 20 पिछड़ा वर्ग महिला 14 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
24	झण्डी	11 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 10 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 7 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला
25	गिन्दौरा	2 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
26	इन्दार	7 अ. जा. 18 अ. जा. 15 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 20 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
27	बामौरखुर्द	4 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
	बामौरखुर्द	18 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 7 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
28	विनैका	8 अ. जा. 17 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 15 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
29	एजवारा	9 अ. जा. 11 अ. जा. 18 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
30	बरोदिया	1 अ. जा. 4 अ. जा. 15 अ. जा. महिला 19 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
	बरोदिया	11 अ. ज. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
31	मेघोनाबडा	8 अ. जा. 9 अ. जा. 15 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 20 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला
32	मडवासा	8 अ. जा. 13 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 20 अ. ज. जा. महिला 2 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
33	तरावली	2 अ. जा. 4 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
	तरावली	13 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
34	पीरोंठ	5 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 10 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
35	कुसुअन	10 अ. जा. 14 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 2 पिछड़ा वर्ग 6 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 5 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
36	रामगढ़	15 अ. जा. 17 अ. जा. 16 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 19 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	रामगढ़	2 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 10 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
37	श्रीपुरचक	5 अ. जा. 11 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 16 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 7 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 18 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
38	कुटबारा	2 अ. जा. 4 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
39	पगारा	9 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 20 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 16 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 19 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
40	रिन्हाय	2 अ. जा. 8 अ. जा. 10 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 16 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला
41	अम्हारा	8 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 1 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. महिला 6 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
42	मथना	1 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 10 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 2 पिछड़ा वर्ग महिला 7 अनारक्षित महिला
43	वेदमउ	15 अ. जा. 16 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 10 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला
44	सेसई	5 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
45	माढा	4 अ. जा. 17 अ. जा. महिला 18 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 19 अ. ज. जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 20 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
46	खरैह	5 अ. जा. 8 अ. जा. 15 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 11 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला
47	सिंघारई	2 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 19 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
48	ठाटी	10 अ. जा. 11 अ. जा. 18 अ. जा. 20 अ. जा. 12 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 9 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 19 अ. जा. महिला 3 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला
49	सजाई	5 अ. जा. 14 अ. जा. 15 अ. जा. 16 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
50	बीजरी	3 अ. जा. 15 अ. जा. 13 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 8 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
51	बामौरकलॉ	5 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 15 अ. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
52	इचोनिया	5 अ. जा. महिला 4 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 18 अ. ज. जा. 20 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 2 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 19 अ. ज. जा. महिला 7 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
53	धन्धेरा	8 अ. जा. 10 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 7 अ. जा. महिला 2 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
54	डगपीपरी	8 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	डगपीपरी	3 पिछड़ा वर्ग 19 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
55	रन्नौद	9 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 11 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 18 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
56	अकाझिरी	19 अ. जा. 18 अ. जा. महिला 20 अ. जा. महिला 5 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 13 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
57	सुनाज	8 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 18 अ. ज. जा. 20 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
	सुनाज	11 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
58	ढकरोरा	5 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
59	टीलाकलॉ	3 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 6 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
60	अकोदा	5 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	अकोदा	3 पिछड़ा वर्ग 17 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
61	विजयपुरा	14 अ. जा. महिला 9 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 20 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
62	देहरदागणेश	2 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 16 अ. ज. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 9 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
63	टामकी	2 अ. ज. जा. 11 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
	टामकी	5 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 13 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग महिला 12 पिछड़ा वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
64	लालपुर	6 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बदरवास, जिला शिवपुरी

ग्राम पंचायत के वार्डों का प्रवर्गवार आरक्षण दिनांक 19-11-2009

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्डों की संख्या	अ.जा. वार्डों के क्रमांक			अ.ज.जा. वार्डों के क्रमांक			पिछड़ा वर्ग वार्डों के क्रमांक			अनारक्षित वार्डों के क्रमांक		
			मुक्त (4)	महिला (5)	योग (6)	मुक्त (7)	महिला (8)	योग (9)	मुक्त (10)	महिला (11)	योग (12)	मुक्त (13)	महिला (14)	योग (15)
1	मुढेरी	16	0	0	0	4,5,6,7, 11,14, 15,16	1,2,3,8, 9,10,12, 13	16	0	0	0	0	0	0
2	रामपुरी	15	0	0	0	2,3,6,7, 13,14	1,5,8,9, 10,12,15	13	0	0	0	4	11	2
3	सालोन	20	0	0	0	2,5,8,9,12, 13,14,15	3,4,6,7, 16,17, 18,19,20	17	0	0	0	10,11	1	3
4	अगरा	11	0	3	1	6,8	7,10,11	5	0	0	0	1,5,9	2,4	5
5	चन्दोरिया	15	11	1	2	0	0	0	9,13	7,8	4	3,5,10,15	2,4,6, 12,14	9
6	झूलना	12	8	7	2	11	9,10	3	1	2,12	3	3,4,6	5	4
7	वांहगा	13	0	0	0	7,9, 10,13	3,5, 6,8	8	0	0	0	2,11	1,4,12	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	बरखेड़ा खुर्द	14	2	3	2	9	10,13	3	4,12	5,6	4	7,11,14	1,8	5
9	अटलपुर	15	2,3,5	1,4,7	6	0	12	1	6,13	8,15	4	9,11	10,14	4
10	खजूरी	20	12,17	3,9,10	5	0	0	0	11,19	4,18,16	5	1,2,7,8, 14,20	5,6, 13,15	10
11	मागरोल	17	5	1	2	7,8,12	9,10, 11,13	7	0	0	0	2,6, 15,16	3,4, 14,17	8
12	बडोखरा	20	0	1	1	7,12	5,8,13	5	14,17	4,10,16	5	2,6,11, 15,19,20	3,9,18	9
13	सुमैला	13	10,12	11,13	4	0	0	0	8	4,6	3	1,3,5	2,7,9	6
14	बारई	20	15	16,17	3	0	0	0	3,12	1,9,20	5	4,5,6,7, 8,12,13	2,18,19, 10,14	12
15	धामनटूक	17	0	6	1	1,13, 16,17	10,11,12, 14,15	9	0	0	0	2,4,8,9	3,5,7	7
16	बामौर	15	7,9,13	5,6,8	6	0	0	0	3,10	1,14	4	11,12,15	2,4	5
17	बूढाडोगर	18	0	11	1	9,12	6,7,8	5	3,4	5,15,17	5	1,13,14, 16,18	2,10	7
18	चितारा	15	7	10,11	3	0	5	1	2,8	3,15	4	1,4,6,9	12,13,14	7
19	सड्बूढ	16	2,3	10,11	4	0	0	0	8,14	12,15	4	6,7,9,13	1,4, 5,16	8
20	अलावदी	13	13	5,6	3	0	0	0	8	1,9	3	2,3,4,7	10,11,12	7
21	रिजोदी	14	5,6	2,7	4	13	14	2	8,12	1,3	4	10,11	4,9	4
22	बारोद	18	4	3,13	3	14,15	16,17	4	1,18	2,9,12	5	5,6,7,10	8,11	6
23	खतौरा	20	8,12	2,7	4	0	6	1	13,18	1,9,20	5	3,4,5, 10,11,15	14,16,17, 19	10
24	झण्डी	16	11	8,12	3	10	9	2	7,15	1,14	4	2,3,5,6	4,13,16	7
25	गिन्दौरा	13	2	1,13	3	0	0	0	11	3,10	3	4,6,7,9	5,8,12	7
26	इन्दार	20	7,18	15,16,17	5	20	19	2	6,10	1,4,11	5	2,5,8, 9,12	3,13,14	8
27	बामौरखुर्द	20	4	5	2	0	13	1	11,14	16,18,19	5	1,2,3,6, 10,12,15	7,8,9, 17,20	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
28	बिनैका	20	8,17	2,3,15	5	12	6,7	3	15,20	13,14,19	5	1,4,9, 10,11	5,16	7
29	एजवारा	18	9,11,18	2,3,10, 12	7	0	0	0	8,14	1,15,16	5	4,6,7,17	5,13	6
30	बरोदिया	20	1,4	15,19	4	12	11	2	9,16	8,14,17	5	3,5,6, 10,13	2,7 18,20	9
31	मेधोनाबडा	20	8,9,15	3,7,16	6	0	20	1	6,17	1,12,14	5	2,4,10, 11,13	5,18,19	8
32	मडवासा	20	8	13,14	3	12	20	2	2,15	3,6,10	5	1,5,7,11, 17,19	4,9,16, 18	10
33	तरावली	18	2,4,13	3,14,16	6	0	8	1	9,10	1,11,15	5	5,6,7, 18	12,17	6
34	पीरोंठ	20	5	6,7	3	0	9	1	10,17	11,14,19	5	1,8,12,13, 15,16,20	2,3,4,18	11
35	कुसुअन	14	10,14	7,11,13	5	0	0	0	2,6	1,5	4	3,8,9	4,12	5
36	रामगढ़	20	15,17	16,18,19	5	0	0	0	2,20	1,10,14	5	3,4,5, 7,8,13	6,9,11,12	10
37	श्रीपुरचक	19	5,11	10,12	4	16	1	2	7,9	13,15,18	5	3,4,6,19	2,8,14,17	8
38	कुटबारा	20	2,4	3,5	4	6	7	2	1,20	10,14,7	5	8,9,11, 13,19	12,15, 16,18	9
39	पगारा	20	9	1,20	3	6,12	13,14	4	16,17	3,8,19	5	5,7,10, 11,15	2,4,18	8
40	रिन्हाय	17	2,8,10	6,7,11,14	7	16	15,17	3	0	0	0	1,9,12,13	3,4,5	7
41	अम्हारा	20	8	9,10	3	1	12	2	6,13	14,15,16	5	2,4,5, 11,17,19	3,7,18,20	10
42	मथना	10	1	3	2	10	9	2	8	5,2	3	4,6	7	3
43	वेदमठ	19	15	16,17	3	2,3,7,8	1,4,5,13	8	0	0	0	6,9, 11,18	10,12, 14,19	8
44	सेसई	20	0	0	0	5,6,8,11, 15,16	3,4,7,10, 14,17	12	0	0	0	2,9, 12,19	1,13, 18,20	8
45	माढा	20	4	17	2	18	7,19	3	8,14	15,16,20	5	3,5,6,9 10,11	1,2,12,13	10
46	खैरह	19	5,8,15	4,6,18	6	0	16	1	3,11	7,9,14	5	1,10,12,17	2,13,19	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
47	सिंघारई	20	2	6,10	3	9,17	8,18,19	5	11,13	5,15,16	5	1,7,12,14,20	3,4	7
48	ठाटी	20	10,11, 18, 20	12,8,9, 14,19	9	0	0	0	3,17	4,7,16	5	2,6,13,15	1,5	6
49	सजाई	20	5,14,15	16,17,18	6	0	0	0	1,20	2,4,13	5	3,7,8, 9,19	6,10, 11,12	9
50	बीजरी	16	3,15	13,14	4	0	0	0	4,8	9,11	4	1,5,7,10	2,6,12,16	8
51	बामौरकलॉ	17	5	6,15	3	0	14	1	1,7	9,13	4	3,8,11 12,16	2,4, 10,17	9
52	इचोनिया	20	0	5	1	4,15,17, 18,20	1,2,6, 16,19	10	0	0	0	3,8,10, 11,14	7,9,12,13	9
53	धन्धेरा	13	8,10	6,7	4	0	0	0	2	3,13	3	4,5,9	1,11,12	6
54	डगपीपरी	19	8	7,18	3	0	11	1	3,19	9,13,15	5	2,4,5,6, 14,17	1,10, 12,16	10
55	रनौद	20	9	8	2	0	10	1	11,15	1,12,18	5	2,5,6,14, 16,17,20	4,19,3, 7,13	12
56	अकाझिरी	20	19	18,20	3	0	0	0	5,3	2,13,15	5	1,6,8,9, 10,12,14	4,7,11, 16,17	12
57	सुनाज	20	8	6	2	12,17, 18,20	11,13,14, 15,16	9	0	0	0	1,2,5, 7,19	3,4,9,10	9
58	ढकरोरा	15	0	0	0	5,7,8, 13,15	3,4,6, 10,14	10	0	0	0	11,12	1,2,9	5
59	टीलाकलॉ	15	0	0	0	3,7,8,10	4,5,6, 14,15	9	0	0	0	2,11,13	1,9,12	6
60	अकोदा	20	5	4,6	3	8,11	7,10	4	3,17	9,12,14	5	2,15,18, 19,20	1,13,16	8
61	विजयपुरा	20	0	14	1	9,11	7,8,10	5	4,15	2,17,20	5	1,5,6,13, 18,19	3,12,16	9
62	देहरदागणेश	19	2	1,18	3	12,14,19	13,15,16	6	4,10	3,6,8	5	5,11,17	9,7	5
63	टामकी	13	0	0	0	2,11	1,5,10	5	13	9,12	3	3,6,8	4,7	5
64	लालपुर	12	6	5,12	3	0	0	0	4	2,11	3	3,7,8,9	1,10	6
योग		1109	83	115	198	96	124	220	92	131	223	272	196	468

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. ग्रा.पंचा.निर्वा.-आरक्षण-09.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 एक के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन 1995 के नियम 4 (4) (5) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13 (5) (6) के लिये चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत करैरा के क्षेत्रांतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नम्बर (3) में दर्शाये गये वार्डों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :-

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1	उकायला	7 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. महिला 19 अ. ज. जा. महिला 20 अ. ज. जा. महिला 18 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 16 पि. वर्ग महिला 17 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला
2	पारागढ़	3 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 8 अ. ज. जा. महिला 15 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 4 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
3	आमोलपठा	4 अ. जा. 11 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 20 अ. ज. जा. 15 पिछड़ा वर्ग 17 पि. वर्ग 9 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 18 पि. वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
4	राजगढ़	2 अ. जा. 4 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 18 अ. ज. जा. महिला 13 अ. ज. जा. महिला 11 अ. ज. जा. महिला 9 पि. वर्ग 19 पि. वर्ग 8 पि. वर्ग महिला 17 पि. वर्ग महिला 20 पि. वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
5	उडवाह	13 अ. जा. 2 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. 1 अ. ज. जा. महिला 3 अ. ज. जा. महिला 4 अ. ज. जा. महिला 9 पि. वर्ग 11 पि. वर्ग 7 पि. वर्ग महिला 5 पि. वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
6	सिलानगर	7 अ. जा. 17 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 11 पि. वर्ग 4 पि. वर्ग 19 पि. वर्ग महिला 5 पि. वर्ग महिला 20 पि. वर्ग महिला 13 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
7	दिदावली	8 अ. जा. महिला 5 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 18 पि. वर्ग 6 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 12 पि. वर्ग महिला 13 पि. वर्ग महिला 19 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
8	अमोलाक्रेसर	9 अ. जा. 4 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. महिला 1 अ. ज. जा. महिला 3 अ. ज. जा. महिला 13 पि. वर्ग 7 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
9	सलैया करैरा	18 अ. जा. 2 अ. जा. 4 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		1 अ. जा. महिला 6 अ. ज. जा. 5 अ. ज. जा. महिला 3 पि. वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग 13 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 8 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
10	बरोदी	1 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 11 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 7 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग महिला 6 पि. वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
11	मामोनीकला	9 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 10 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग महिला 7 पि. वर्ग महिला 8 अनारक्षित महिला
12	मामोनीखुर्द	6 अ. जा. 4 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 5 अ. ज. जा. महिला 11 पि. वर्ग 13 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
13	बघरासाजोर	11 अ. जा. 9 अ. जा. 10 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		13 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		16 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		19 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
14	टोडा पिछोर	9 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		7 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		5 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
15	सिरसौद	1 अ. जा.
		15 अ. जा.
		17 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		11 अ. ज. जा.
		19 अ. ज. जा.
		10 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		20 अ. ज. जा. महिला
		7 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		2 पि. वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
16	नारही	2 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		9 अ. जा.
		10 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		11 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		5 पि. वर्ग महिला
		18 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
17	डुमघना	17 अ. जा.
		14 अ. जा.
		12 अ. जा.
		15 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		10 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग
		19 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		5 पि. वर्ग महिला
		18 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
18	घसारही	7 अ. जा.
		9 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		6 अ. ज. जा.
		14 पि. वर्ग
		18 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		11 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
19	लालपुर	5 अ. जा.
		8 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		15 पि. वर्ग
		18 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग महिला
		4 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
20	बासगढ़	3 अ. जा.
		4 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		14 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		20 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
21	औंडर	8 अ. जा.
		13 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		5 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
22	छिरारी	1 अ. जा. 8 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 9 पि. वर्ग 10 पि. वर्ग महिला 6 पि. वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
23	बनगंवा	11 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 12 अ. जा. महिला 16 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग महिला 9 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
24	दुमदुमा	16 अ. जा. 15 अ. जा. महिला 17 अ. जा. महिला 4 पि. वर्ग 11 पि. वर्ग 13 पि. वर्ग महिला 6 पि. वर्ग महिला 14 पि. वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
25	लंगूरी	2 अ. जा. 1 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
26	खैराघाट	6 अ. जा. 7 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 2 पि. वर्ग 13 पि. वर्ग 14 पि. वर्ग महिला 8 पि. वर्ग महिला 10 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
27	मछावली	7 अ. जा. 13 अ. जा. 9 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 15 पि. वर्ग 8 पि. वर्ग 16 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला
28	वगोधरी अब्बल	10 अ. जा. 11 अ. जा. 14 अ. जा. 15 अ. जा. महिला 4 अ. जा. महिला 2 अ. जा. महिला 3 अ. जा. महिला 7 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग 6 पि. वर्ग महिला 8 पि. वर्ग महिला 13 अनारक्षित महिला 1 अनारक्षित महिला
29	कारोठा	9 अ. जा. 2 अ. जा. 1 अ. जा. महिला 8 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		17 अ. ज. जा.
		6 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
30	मुंगावली	1 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		13 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		14 अ. ज. जा. महिला
		17 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग महिला
		3 पि. वर्ग महिला
		19 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
31	चौका	6 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		12 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
32	बहादुरपुर	13 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग महिला
		3 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
33	चिन्नौद	17 अ. जा. 14 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 2 पि. वर्ग 19 पि. वर्ग 8 पि. वर्ग महिला 18 पि. वर्ग महिला 4 पि. वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
34	टीला	4 अ. जा. 9 अ. जा. 3 अ. जा. महिला 5 अ. जा. महिला 7 पि. वर्ग 16 पि. वर्ग 2 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 18 पि. वर्ग महिला 15 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 20 अनारक्षित महिला
35	टोडाकरैरा	8 अ. जा. 6 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 13 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
36	निचरोली	1 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 12 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		8 पि. वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
37	कालीपहाड़ी	8 अ. जा.
		13 अ. जा.
		15 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		1 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
38	जुझाई	7 अ. जा.
		9 अ. जा.
		17 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
39	रहरगवा	1 अ. जा.
		3 अ. जा.
		11 अ. जा.
		5 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		7 अ. जा. महिला
		4 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
40	बडोरा	15 अ. जा.
		8 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग
		20 पि. वर्ग महिला
		2 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		19 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
41	सिरसौना	16 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		14 पि. वर्ग
		20 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
42	सिल्लारपुर	5 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		17 अ. जा. महिला
		12 अ. ज. जा.
		10 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		19 पि. वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		6 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
43	दवराकरैरा	4 अ. जा.
		8 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
44	खैराई	4 अ. जा.
		11 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		5 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
45	वम्हारी	15 अ. जा.
		2 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		18 अ. जा. महिला
		12 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		9 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
46	छतिपुर	17 अ. जा.
		3 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		19 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		18 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		1 अनारक्षित महिला
47	कुरील	9 अ. जा.
		14 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		5 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
48	सलैयाडामरोन	5 अ. जा.
		3 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		2 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		7 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग महिला
		9 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
49	कुम्हरौआ	4 अ. जा.		
		18 अ. जा.		
		1 अ. जा. महिला		
		3 अ. जा. महिला		
		7 अ. ज. जा.		
		2 पि. वर्ग		
		16 पि. वर्ग		
		17 पि. वर्ग महिला		
		12 पि. वर्ग महिला		
		14 पि. वर्ग महिला		
		8 अनारक्षित महिला		
		15 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		20 अनारक्षित महिला		
		50	बैसोराकला	5 अ. जा.
				3 अ. जा. महिला
4 अ. जा. महिला				
1 पि. वर्ग				
13 पि. वर्ग				
17 पि. वर्ग महिला				
12 पि. वर्ग महिला				
15 अनारक्षित महिला				
10 अनारक्षित महिला				
11 अनारक्षित महिला				
16 अनारक्षित महिला				
6 अनारक्षित महिला				
51	कुचलोन	14 अ. जा.		
		13 अ. जा. महिला		
		4 अ. ज. जा.		
		5 पि. वर्ग		
		9 पि. वर्ग		
		1 पि. वर्ग महिला		
		10 पि. वर्ग महिला		
		12 अनारक्षित महिला		
		11 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
2 अनारक्षित महिला				
52	डामरोनकला	13 अ. जा.		
		20 अ. जा.		
		11 अ. जा. महिला		

(1)	(2)	(3)
		12 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		7 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
53	डामरोनखुर्द	10 अ. जा.
		11 अ. जा.
		1 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		3 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग महिला
		19 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
54	ढाड	18 अ. जा.
		20 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		19 अ. जा. महिला
		13 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		9 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
55	दबरादिनारा	9 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा. महिला
		3 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		13 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		56
5 अ. जा. महिला		
7 अ. जा. महिला		
1 पि. वर्ग		
12 पि. वर्ग		
9 पि. वर्ग महिला		
14 पि. वर्ग महिला		
2 अनारक्षित महिला		
13 अनारक्षित महिला		
11 अनारक्षित महिला		
15 अनारक्षित महिला		
57	सेमरा	3 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		18 अ. ज. जा.
		20 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा. महिला
		19 अ. ज. जा. महिला
		5 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग
		16 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
1 अनारक्षित महिला		
58	कडोरालोधी	3 अ. जा.
		14 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग

(1)	(2)	(3)
		7 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
59	सहरया	2 अ. जा.
		8 अ. ज. जा.
		7 अ. ज. जा. महिला
		3 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
60	थनरा	14 अ. जा.
		18 अ. जा.
		13 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		15 अ. जा महिला
		4 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		1 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
61	चन्दावरा	7 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		3 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
62	दिनारा	15 अ. जा. 19 अ. जा. 2 अ. जा. महिला 6 अ. जा. महिला 7 पि. वर्ग 12 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग महिला 8 पि. वर्ग महिला 20 पि. वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
63	अलगी	6 अ. जा. 5 अ. जा. 4 अ. जा. महिला 16 अ. जा. महिला 18 अ. ज. जा. 11 पि. वर्ग 7 पि. वर्ग 14 पि. वर्ग महिला 17 पि. वर्ग महिला 15 पि. वर्ग महिला 9 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 2 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
64	दाबरदेही	3 अ. जा. 4 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 2 अ. जा. महिला 8 पि. वर्ग 17 पि. वर्ग 11 पि. वर्ग महिला 15 पि. वर्ग महिला 9 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
65	आवास	5 अ. जा.		
		16 अ. जा.		
		14 अ. जा.		
		11 अ. जा. महिला		
		17 अ. जा. महिला		
		13 अ. जा. महिला		
		1 पि. वर्ग		
		6 पि. वर्ग		
		7 पि. वर्ग महिला		
		18 पि. वर्ग महिला		
		20 पि. वर्ग महिला		
		2 अनारक्षित महिला		
		19 अनारक्षित महिला		
		12 अनारक्षित महिला		
		3 अनारक्षित महिला		
		66	कूड	12 अ. जा.
				4 अ. जा.
13 अ. जा. महिला				
15 अ. जा. महिला				
3 पि. वर्ग				
14 पि. वर्ग				
1 पि. वर्ग महिला				
7 पि. वर्ग महिला				
6 अनारक्षित महिला				
16 अनारक्षित महिला				
11 अनारक्षित महिला				
8 अनारक्षित महिला				

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

कार्यालय, जनपद पंचायत करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

ग्राम पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की जानकारी, वर्ष 2009-10

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड संख्या	अ.जा. वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			अ.ज.जा. वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			पिछड़ा वर्ग वार्डों की संख्या एवं क्रमांक			अनारक्षित वार्डों की संख्या एवं क्रमांक		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	उकायला	20	7	4	2	12,13,15	5,19,20	6	18,3	1,16,17	5	6,8,9,11	2,10,4	7
2	अमोलपडा	20	4,11	2,3,14	5	20	0	1	15,17	9,10,18	5	19,5,7,12,13	6,1,8,16	9
3	पारागढ़	19	3	2	2	5,6,7,16	8,15,14,17	8	0	0	0	1,13,18,19	4,9,10,11,12	9
4	राजगढ़	20	2,4	1,16	4	12,15,14	18,13,11	6	9,19	8,17,20	5	5,7,3	6,10	5
5	उडवाह	15	13	0	1	2,10	1,3,4	5	9,11	7,5	4	6,8	12,15,14	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	सिलानगर	20	7	0	1	17	10,18	3	11,4	19,5,20	5	1,2,8,14,15,16	13,6,3,9,12	11
7	दिवावली	20	0	8	1	5	4	2	18,6	1,12,13	5	2,16,15,17,20,11,14	19,7,3,9,10	12
8	अमोलाक्रेसर	13	9	0	1	4,5	6,1,3	5	13	7	2	8,11	2,12,10	5
9	सलैया करैरा	20	18,2	4,1	4	6	5	2	3,15	13,7,10	5	9,11,12,16,17	8,20,19,14	9
10	बरोदी	11	1	2	2	11	4	2	7	3,6	3	10,8	5,9	4
11	मामोनीकला	10	9	4,3	3	0	0	0	10	5,7	3	2,6,1	8	4
12	मामोनीखुर्द	14	6	0	1	4	3,5	3	11	13,10	3	8,1,9,7	2,12,14	7
13	बघरासाजोर	19	11,9,10	13,1,12	6	0	0	0	6,16	4,14,7	5	15,3,18,5	19,8,2,17	8
14	टोडा पिछोर	16	9	1	2	0	0	0	7,15	10,5	4	2,8,6,16,14	4,12,3,13,11	10
15	सिरसौद	20	1,15,	17,14	4	11,19,10	12,18,20	6	7,5	3,6,2	5	9,4,8	16,13	5
16	नारही	20	2,9	10,1	4	11,16	12,4	4	8,13	15,20,5	5	14,6,7,17	18,3,19	7
17	डुमघना	20	17,14,12	15,13,16	6	10	11	2	6,2	19,8,5	5	3,9,4,1	18,7,20	7
18	घसारई	19	7	9,4	3	6	0	1	14,18	1,15,12	5	5,3,10,17,2	16,13,19,11,8	10
19	लालपुर	20	5,8	6,7	4	0	0	0	15,18	14,4,20	5	11,17,16,3,1,12	2,10,9,19,13	11
20	बासागड	20	3,4	1,5	4	16	0	1	14,12	9,18,6	5	11,17,15,7,19	20,8,2,10,13	10
21	आडर	13	8,13	6,7	4	0	0	0	5	9,1	3	4,3,12	2,11,10	6
22	धिरारी	11	1,8	2,3	4	0	0	0	9	10,6	3	5,11	4,7	4
23	वनगवा	16	11	10,12	3	0	0	0	16,1	5,9	4	3,4,7,13,6	2,15,8,14	9
24	दुमदुमा	20	16	15,17	3	0	0	0	4,11	13,6,14	5	8,9,12,10,1,2,3	5,19,11,7,20	12
25	लंगूरी	11	2	0	1	0	0	0	1	3,10	3	11,4,7	6,9,5,8	7
26	खेराघाट	14	6,7	3,5	4	0	0	0	2,13	14,8	4	1,4,12	10,11,9	6
27	मछावली	16	7,13	9,5,6	5	0	0	0	15,8	16,10	4	1,11,3,12	2,14,4	7
28	बगेधरीअव्वल	15	10,11,14	15,4,2,3	7	0	0	0	7,5	6,8	4	9,12	13,1	4
29	कारोठा	17	9,2	1,8,4	5	17	0	1	6,13	7,15	4	10,5,16	3,12,11,4	7
30	मुगावली	19	1	7,6	3	13	15,14	3	17,10	8,3,19	5	2,4,9,11,16	5,12,18	8
31	चौका	12	6	5	2	0	0	0	12	2,1	3	8,3,10,9	4,11,7	7
32	बहादुरपुर	15	13	5,9	3	0	0	0	1,6	14,3	4	12,2,7,8	4,10,11,15	8
33	चिन्नोद	20	17,14	7,16	4	0	0	0	2,19	8,18,4	5	6,10,12,15,9,1	5,3,20,13,11	11
34	टीला	20	4,9	3,5	4	0	0	0	7,16	2,10,18	5	11,13,6,1,17,8	15,14,19,12,20	11
35	टोडाकरैरा	13	8	0	1	0	0	0	6	1,10	3	3,9,5,4	13,11,2,7,12	9
36	निचरोली	12	1	6	2	0	0	0	12	3,8	3	5,7,4,10	9,2,11	7
37	कालीपहाड़ी	20	8,13,15	7,1,14	6	0	0	0	4,10	9,18,20	5	2,6,5,17,3	11,12,16,19	9
38	जुझाई	20	7,9,17	3,4,5	6	0	0	0	6,13	10,16,14	5	1,2,11,19,20	8,15,12,18	9
39	रहरगवा	13	1,3,11,5	2,10,6,7	8	0	0	0	0	0	0	8,13	4,9,12	5
40	बडौरा	20	15	8,14	3	0	0	0	4,13	20,2,7	5	16,17,3,18,6,9,1	19,12,5,10,11	12
41	सिरसौना	20	16	3,13	3	0	0	0	14,20	2,8,7	5	1,4,5,9,11,18,15	12,10,6,17,19	12
42	सिल्लारपुर	20	5	4,17	3	12	10,16	3	2,15	7,1,19	5	13,18,9,8,11,3	6,14,20	9
43	दवराकरैरा	18	4,8	3,13,14	5	0	0	0	1,17	2,7,15	5	12,9,6,10,18	5,16,11	8
44	खैराई	15	4,11	6,12,13	5	0	0	0	8,14	1,5	4	10,9,3	2,7,15	6
45	बम्हारी	18	15,2	1,16,18	5	0	0	0	12,6	8,9,14	5	10,11,4,3,5	7,17,13	8
46	छितिपुर	19	17,3	4,16	4	0	0	0	19,12	8,6,14	5	10,13,11,9,5	18,7,2,15,1	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
47	कुरौल	16	9,14	7,3,8	5	0	0	0	5,11	2,16	4	10,1,12,15	6,13,4	7
48	सलैयाडामरोन	13	5,3	1,2,12	5	0	0	0	7	13,9	3	10,11,8	4,6	5
49	कुम्हरीआ	20	4,18	1,3	4	7	0	1	2,16	17,12,14	5	9,11,10,19,5	8,15,6,13,20	10
50	बैसोराकला	17	5	3,4	3	0	0	0	1,13	17,12	4	8,14,9,2,7	15,10,11,16,6	10
51	कुचलोन	14	14	13	2	4	0	1	5,9	1,10	4	7,8,3	12,11,6,2	7
52	डामरोनकला	20	13,20	11,12,16	5	0	0	0	7,9	3,10,1	5	4,14,6,2,18,15	5,8,19,17	10
53	डामरोनखुर्द	20	10,11,1	7,9,8	6	0	0	0	3,17	12,19,16	5	2,6,14,4,15	5,18,20,13	9
54	ढाड	20	18,20	5,7,19	5	0	0	0	13,17	3,9,1	5	11,12,8,4,15,14	6,2,16,10	10
55	दबरादिनारा	17	9	6,10	3	16	15,17	3	3,8	1,12	4	2,11,14,4	13,5,7	7
56	खिरियापनावली	15	8	5,7	3	0	0	0	1,12	9,14	4	3,4,6,10	2,13,11,15	8
57	सेमरा	20	3	6,13	3	18,20	17,19	4	5,7	16,10,15	5	8,12,2,14,11	4,9,1	8
58	कडोरालोधी	14	3	0	1	0	0	0	14,1	7,11	4	5,6,2,12	10,13,9,8,4	9
59	सहरया	17	2	0	1	8	7	2	3,11	1,12	4	14,5,10,4	15,17,13,6,16,9	10
60	धनरा	18	14,18	13,12,15	5	0	0	0	4,7	10,6,1	5	2,5,11,9,8	3,16,17	8
61	चन्दावरा	11	7	6,8	3	0	0	0	2	1,3	3	9,10,4	5,11	5
62	दिनारा	20	15,19	2,6	4	0	0	0	7,12	5,8,20	5	3,16,18,4,14,17	1,9,13,11,10	11
63	अलगी	18	6,5	4,16	4	18	0	1	11,7	14,17,15	5	1,3,8,12	9,10,2,13	8
64	दाबरदेही	17	3,4	5,10,2	5	0	0	0	8,17	11,15	4	7,13,1,6	9,14,16,12	8
65	आवास	20	5,16,14	11,17,13	6	0	0	0	1,6	7,18,20	5	8,9,10,15,4	2,19,12,3	9
66	कूड	16	12,4	13,15	4	0	0	0	3,14	1,7	4	5,9,10,2	6,16,11,8	8
योग :		1126	110	130	240	38	38	76	116	161	277	287	246	533

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक एवं मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनके जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4(4)(5) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13(5)(6) के लिये चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत पिछोर के क्षेत्रांतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नम्बर (3) में दर्शाये गये वार्डों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1	चंदावनी	6 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 12 अ. ज. जा. 17 अ. ज. जा. 19 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अ. ज. जा. महिला
		20 अ. ज. जा. महिला
		13 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
2	महुकुडच्छा	1 अ. ज. जा.
		13 अ. ज. जा.
		14 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		5 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		7 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
3	वीरा	2 अ. जा.
		4 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		19 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		20 अ. ज. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
4	कुम्हरोआ	14 अ. जा.
		3 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
		4 अ. ज. जा. महिला
		6 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा. महिला
		2 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
5.	माचमौर	4 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		9 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा. महिला
		11 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
6.	देवरीखुर्द	11 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		6 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		14 अ. ज. जा. महिला
		2 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
7.	गढोईया	3 अ. जा.
		17 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		13 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		15 पि. वर्ग
		16 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		6 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
8.	गुरुकुदवाया	11 अ. जा.
		12 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
9.	केमखेड़ा	3 अ. जा. महिला
		1 अ. ज. जा.
		4 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		5 अ. ज. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
10.	तिजारपुर	20 अ. जा.
		13 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		1 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		6 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		4 अ. ज. जा. महिला
		16 पि. वर्ग
		18 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		9 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
11.	पडोरा	11 अ. जा. 12 अ. जा. 10 अ. जा. महिला 13 अ. जा. महिला 14 अ. जा. महिला 17 अ. ज. जा. 20 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 6 पि. वर्ग 9 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 3 पि. वर्ग महिला 4 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला
12.	भडोरा	12 अ. जा. 2 अ. ज. जा. 6 अ. ज. जा. 14 अ. ज. जा. 3 अ. ज. जा. महिला 7 अ. ज. जा. महिला 8 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 4 पि. वर्ग 10 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 11 पि. वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
13.	खडोय	10 अ. जा. 6 अ. जा. महिला 11 अ. जा. महिला 14 अ. ज. जा. 15 अ. ज. जा. 16 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. महिला 17 अ. ज. जा. महिला 18 अ. ज. जा. महिला 2 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग 7 पि. वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		8 पि. वर्ग महिला
		9 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
14.	पिपरो	4 अ. जा.
		13 अ. जा. महिला
		1 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		5 पि. वर्ग
		19 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
15.	शेरगढ़	4 अ. जा.
		16 अ. जा. जा.
		18 अ. जा. जा.
		10 अ. जा. जा. महिला
		17 अ. जा. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
16.	चिन्नोदी	4 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
17.	गणेशखेडा	6 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		7 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
18.	विजयपुर	11 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
19.	खोड	6 अ. जा.
		18 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		2 अ. ज. जा.
		1 अ. ज. जा. महिला
		12 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		17 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
20.	बरैला	2 अ. जा.
		5 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		4 अ. जा. महिला
		6 अ. ज. जा.
		13 अ. ज. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
21.	दरगंवा	6 अ. जा.
		10 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		4 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
22.	नागुली	6 अ. जा.
		16 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		10 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		13 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
23.	बक्सनपुर	1 अ. जा.
		8 अ. ज. जा.
		12 अ. ज. जा.
		14 अ. ज. जा.
		7 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		13 अ. ज. जा. महिला
		15 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		2 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
24.	आसपुर	7 अ. जा.
		12 अ. जा.
		15 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		19 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
25.	नावली	1 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		6 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा.
		18 अ. ज. जा.
		3 अ. ज. जा. महिला
		7 अ. ज. जा. महिला
		16 अ. ज. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग महिला
		5 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
26.	दुल्हई	9 अ. जा.
		10 अ. जा.
		8 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
		17 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		18 अ. ज. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
27.	मनपुरा	5 अ. जा.
		9 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		8 अ. जा. महिला
		17 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा. महिला
		10 पि. वर्ग
		18 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
28.	केंडर	3 अ. जा.
		8 अ. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
29.	नदना	2 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा. महिला
		4 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
30.	भयावन	5 अ. जा.
		4 अ. जा.
		6 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
31.	उमरीखुर्द	5 अ. जा.
		10 अ. जा.
		12 अ. जा.
		18 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		4 अ. जा. महिला
		15 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		16 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
11 अनारक्षित महिला		
13 अनारक्षित महिला		
32.	उमरीकलां	4 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		10 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
16 अनारक्षित महिला		
17 अनारक्षित महिला		
33.	ककरोआठुनी	9 अ. जा.
		16 अ. जा.

(1)	(2)	(3)
		8 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		11 अ. ज. जा.
		3 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
34.	बूढौनकरैरा	15 अ. जा.
		2 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
35.	छिरवाहा	12 अ. जा.
		13 अ. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		4 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
36.	पायगा	7 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		14 अ. ज. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग

(1)	(2)	(3)
		2 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
37.	बडैरा	9 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		19 अ. जा. महिला
		1 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		11 अ. ज. जा. महिला
		10 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
38.	पटसेरा	14 अ. जा.
		13 अ. जा. महिला
		3 अ. ज. जा.
		1 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
39.	मल्हावनी	5 अ. जा.
		7 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		6 अ. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		20 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
40.	सेमरी	8 अ. जा.
		9 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		10 पि. वर्ग
		12 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		3 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
41.	भंगवा	4 अ. जा.
		5 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
42.	भरतपुर इमलिया	2 अ. जा.
		4 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		3 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		5 अ. ज. जा.
		6 अ. ज. जा. महिला
		10 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		7 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
43.	लभेडा	6 अ. जा. महिला
		1 अ. ज. जा.

(1)	(2)	(3)
		10 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
44.	बाचरोन	14 अ. जा.
		15 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		16 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
45.	जराय	16 अ. जा.
		10 अ. जा. महिला
		20 अ. जा. महिला
		19 अ. ज. जा.
		3 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
46.	बमना	9 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		4 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		3 अ. ज. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग

(1)	(2)	(3)
		11 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
47.	नांद	9 अ. जा.
		14 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		16 अ. ज. जा.
		17 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		19 अ. ज. जा. महिला
		3 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
48.	कछौआ	8 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		9 अ. जा. महिला
		20 अ. ज. जा.
		4 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		12 पि. वर्ग महिला
		13 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
49.	बदरवास	12 अ. जा.
		18 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		19 अ. जा. महिला
		2 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा. महिला
		17 अ. ज. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		15 पि. वर्ग
		20 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		8 पि. वर्ग महिला
		9 पि. वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
50.	खेरवास	3 अ. जा.
		4 अ. जा.
		5 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		19 अ. जा. महिला
		12 अ. ज. जा.
		7 अ. ज. जा. महिला
		16 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		6 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
51.	चौमुहा	2 अ. जा.
		7 अ. ज. जा.
		1 अ. ज. जा. महिला
		8 अ. ज. जा. महिला
		11 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		10 पि. वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
52.	ढला	10 अ. जा.
		7 अ. जा. महिला
		11 अ. जा. महिला
		14 अ. ज. जा.
		16 अ. ज. जा.
		8 अ. ज. जा. महिला
		9 अ. ज. जा. महिला
		4 पि. वर्ग
		13 पि. वर्ग

(1)	(2)	(3)
		1 पि. वर्ग महिला
		6 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
53.	महौबाडामरोन	12 अ. जा.
		16 अ. जा.
		8 अ. जा. महिला
		10 अ. जा. महिला
		9 अ. ज. जा.
		11 पि. वर्ग
		17 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
54.	भौंती	10 अ. जा.
		15 अ. जा.
		11 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		1 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग
		8 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
55.	तिंधारी	5 अ. जा.
		17 अ. जा.
		11 अ. जा. महिला
		12 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		6 पि. वर्ग

(1)	(2)	(3)
		19 पि. वर्ग
		1 पि. वर्ग महिला
		15 पि. वर्ग महिला
		20 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
56.	बामौरडामरोन	1 अ. जा.
		10 अ. जा.
		9 अ. जा. महिला
		16 अ. जा. महिला
		11 पि. वर्ग
		18 पि. वर्ग
		3 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
57.	पिपारा	1 अ. जा.
		11 अ. जा. महिला
		13 अ. जा. महिला
		7 अ. ज. जा.
		2 अ. ज. जा. महिला
		6 पि. वर्ग
		15 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		18 पि. वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
58.	मुहार	4 अ. जा.
		6 अ. जा.
		3 अ. जा. महिला
		5 अ. जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		16 अ. ज. जा.
		15 अ. ज. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		9 पि. वर्ग
		11 पि. वर्ग महिला
		14 पि. वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
59.	दवियागोविन्द	7 अ. जा.
		4 अ. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		2 पि. वर्ग महिला
		3 पि. वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
60.	सलैया	13 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		14 अ. जा. महिला
		3 अ. ज. जा.
		5 अ. ज. जा.
		6 अ. ज. जा. महिला
		12 अ. ज. जा. महिला
		2 पि. वर्ग
		4 पि. वर्ग
		10 पि. वर्ग महिला
		11 पि. वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
61.	बिरौली	2 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला
		12 अ. ज. जा.
		11 अ. ज. जा. महिला
		13 अ. ज. जा. महिला
		8 पि. वर्ग
		14 पि. वर्ग
		5 पि. वर्ग महिला
		7 पि. वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
62.	देवगढ	1 अ. जा. 7 अ. जा. महिला 15 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 8 पि. वर्ग 11 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग महिला 5 पि. वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
63.	करारखेडा	3 अ. जा. 2 अ. जा. 19 अ. ज. जा. 9 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 7 पि. वर्ग 18 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 12 पि. वर्ग महिला 20 पि. वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
64.	पारेश्वर	14 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 3 पि. वर्ग 20 पि. वर्ग 2 पि. वर्ग महिला 4 पि. वर्ग महिला 16 पि. वर्ग महिला 6 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला 19 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
65.	हिम्मतपुर	1 अ. जा.		
		11 अ. जा.		
		14 अ. जा.		
		3 अ. जा. महिला		
		4 अ. जा. महिला		
		5 अ. जा. महिला		
		10 अ. जा. महिला		
		7 पि. वर्ग		
		8 पि. वर्ग		
		12 पि. वर्ग महिला		
		13 पि. वर्ग महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		15 अनारक्षित महिला		
		66.	सुजावनी	10 अ. जा.
				7 अ. जा. महिला
9 अ. जा. महिला				
8 अ. ज. जा.				
11 पि. वर्ग				
1 पि. वर्ग महिला				
2 पि. वर्ग महिला				
4 अनारक्षित महिला				
6 अनारक्षित महिला				
67.	बदरखा			4 अ. जा.
		1 अ. जा. महिला		
		3 अ. जा. महिला		
		17 अ. ज. जा.		
		11 अ. ज. जा. महिला		
		2 पि. वर्ग		
		20 पि. वर्ग		
		8 पि. वर्ग महिला		
		10 पि. वर्ग महिला		
		12 पि. वर्ग महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		9 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		18 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)
68.	भंवरहार	11 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 10 अ. जा. महिला 2 अ. ज. जा. 12 अ. ज. जा. 13 अ. ज. जा. 4 अ. ज. जा. महिला 9 अ. ज. जा. महिला 14 अ. ज. जा. महिला 1 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला
69.	रूपेपुर	5 पि. वर्ग 3 पि. वर्ग महिला 7 पि. वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
70.	गौचोनी	2 अ. जा. 3 पि. वर्ग 9 पि. वर्ग 11 पि. वर्ग महिला 13 पि. वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला
71.	धौरा	6 अ. जा. 8 अ. ज. जा. 7 अ. ज. जा. महिला 10 अ. ज. जा. महिला 3 पि. वर्ग 4 पि. वर्ग महिला 5 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
72.	नयाखेडा	5 अ. जा. 3 पि. वर्ग 6 पि. वर्ग महिला 8 पि. वर्ग महिला 4 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला
73.	आगरा	3 अ. जा. 5 अ. जा. महिला 18 अ. जा. महिला 8 अ. ज. जा. 10 अ. ज. जा. महिला 14 पि. वर्ग 20 पि. वर्ग 7 पि. वर्ग महिला 15 पि. वर्ग महिला 19 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 16 अनारक्षित महिला
74.	बमेरा	6 अ. जा. 8 पि. वर्ग 5 पि. वर्ग महिला 10 पि. वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला
75.	बिलरई	10 अ. जा. 8 अ. जा. महिला 7 पि. वर्ग 1 पि. वर्ग महिला 2 पि. वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला

जनपद पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
ग्राम पंचायतों के वार्डों का आरक्षण संबंधी चार्ट, वर्ष 2009-10

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्रा.पं. में कुल वार्ड संख्या	अ. जा. वार्ड			अ. ज. जा. वार्ड			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित		
			मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	चंदावनी	20	6	7	2	12,17,19	3,8,9,20	7	13,15	10,14,18	5	1,4,11,16	2,5	6
2	मउकुडच्छा	15	-	-	0	1,13,14,15	2,3,4,5,11	9	-	-	0	6,8,9	7,10,12	6
3	वीरा	20	2,4	3,5	4	16,19	17,18,20	5	1,10	7,11,14	5	6,8,9,15	12,13	6
4	कुम्हरीआ	18	14	-	1	3,5,8,12	4,6,7,9,17	9	-	-	0	1,10,11,18	2,13,15,16	8
5	मामनौर	11	4	3,10	3	9	5	2	11	2,7	3	1,8	6	3
6	देवरीखुर्द	16	11	1,4	3	6,12,15	5,9,14	6	-	-	0	3,10,13,16	2,7,8	7
7	गढोईया	17	3	17	2	7,12,13	8,9,11	6	15,16	2,6,14	5	4,10	1,5	4
8	गुरूकुदवाया	18	11	12	2	16,17	13,15,18	5	1,6	5,10,14	5	2,3,4,7	8,9	6
9	केमखेडा	10	-	3	1	1,4	2,5	4	6	7,10	3	8,9	-	2
10	तिजारपुर	20	20	13,14	3	1,5,6	2,3,4	6	16,18	7,9,12	5	8,10,11,19	15,17	6
11	पडोरा	20	11,12	10,13,14	5	17,20	16,18	4	6,9	1,3,4	5	5,8,15,19	2,7	6
12	भडोरा	16	12	-	1	2,6,14	3,7,8,9	7	4,10	1,11	4	13,16	5,15	4
13	खडोय	20	10	6,11	3	14,15,16	13,17,18	6	2,5	7,8,9	5	1,3,12,20	4,19	6
14	पिपरो	19	4	13	2	1	2	2	5,19	6,11,15	5	3,7,10,17,18	8,9,12,14,16	10
15	शेरगढ़	18	4	-	1	16,18	10,17	4	4,12	9,14,15	5	2,3,5,6	7,8,11,13	8
16	चिन्नीदी	15	4	3,5	3	-	-	0	2,9	6,7	4	1,11,12,14	8,10,13,15	8
17	गणेशखेडा	18	6	2,7	3	-	-	0	1,12	11,13,14	5	4,8,9,15,16,18	3,5,10,17	10
18	विजयपुर	11	11	7	2	-	-	0	4	5,8	3	1,2,10	3,6,9	6
19	खोड	20	6,18	3,4,5	5	2	1	2	12,14	10,17,20	5	8,11,15,16,19	7,9,13	8
20	बरैला	13	2,5	3,4	4	6	13	2	1,7	11,12	4	10	8,9	3
21	दरंगवा	17	6	10,11	3	16	15,17	3	2,13	3,4,14	5	5,7,9,12	1,8	6
22	नागुली	16	6,16	4,5	4	7,10	8,9	4	13,14	11,12	4	2,15	1,3	4
23	बक्सनपुर	16	1	-	1	8,12,14	7,13,15,16	7	-	-	0	3,6,5,10	2,4,9,11	8
24	आसपुर	20	7,12,15	6,13,14	6	16,19	17,18	4	-	-	0	1,2,3,9,11	4,5,8,10,20	10
25	नावली	18	1	2	2	6,17,18	3,7,16	6	8,11	4,5,13	5	9,10,15	12,14	5
26	दुल्हई	20	9,10	8	3	16,17	15,18	4	2,3	11,13,20	5	1,4,5,7	6,12,14,19	8
27	मनपुरा	20	5,9	6,8,17	5	7	16	2	10,18	4,14,15	5	1,2,12,13,20	3,11,19	8
28	केंडर	12	3	8	2	-	-	0	4	6,12	3	2,5,7,9	1,10,11	7
29	नदना	10	2	5,10	3	7	8	2	-	-	0	1,3,6	4,9	5
30	भयावन	14	5,4	6	3	-	-	0	1,10	13,14	4	3,11,12	2,7,8,9	7
31	उमरीखुर्द	18	5,10,12,18	2,3,4,15	8	-	-	0	1,16	6,7,14	5	8,9,17	11,13	5
32	उमरीकलां	20	4	5,11	3	-	-	0	10,15	3,7,13	5	2,8,9,14,18,19,20	1,6,12,16,17	12
33	ककरौआडुनी	16	9,16	8,10	4	11	-	1	3,5	14,15	4	1,2,12	4,6,7,13	7
34	बूढौनकरैरा	15	15	2,14	3	-	-	0	1,11	4,8	4	3,5,6,10	7,9,12,13	8
35	छिरवाहा	20	12	13	2	-	-	0	2,9	1,4,8	5	3,5,6,16,18,19,20,7,10,11,14,15,17,13		
36	पायगा	14	7	4,12	3	-	14	1	1,8	2,11	4	3,5,6,9	10,13	6
37	बडेरा	20	9	5,19	3	1,8	2,11	4	10,17	4,14,16	5	3,6,12,18,20	7,13,15	8
38	पटसेरा	16	14	13	2	3	-	1	1,10	6,15	4	2,5,9,12	4,7,8,11,16	9
39	मल्हावनी	20	5,7	4,6	4	-	-	0	8,20	3,13,16	5	1,10,11,12,14,18	2,9,15,17,19	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
40	सेमरी	20	8,9	7,11	4	-	-	0	10,12	1,3,15	5	2,6,16,17,18,20	4,5,13,14,19	11
41	भगंवा	10	4	-	1	-	-	0	5	6,8	3	1,2,7	3,9,10	6
42	भरतपुर इमलिया	16	2,4	1,3,9	5	5	6	2	10,15	7,8	4	11,12,16	13,14	5
43	लभेडा	12	-	6	1	1	-	1	10	2,11	3	3,4,5,7	8,9,12	7
44	बाचरोन	20	14,15	4,5	4	-	-	0	2,8	6,16,18	5	3,9,10,11,19,20	1,7,12,13,17	11
45	जराय	20	16	10,20	3	19	-	1	3,4	2,6,14	5	5,7,8,12,17,18	1,9,11,13,15	11
46	बमना	14	9	1	2	4	2,3	3	6,8	11,14	4	5,7,12	10,13	5
47	नांद	20	9,14	7,10	4	16,17	15,19	4	3,11	5,12,20	5	1,2,8,18	4,6,13	7
48	कछौआ	20	8	7,9	3	20	-	1	4,15	11,12,13	5	2,3,6,16,17,18	1,5,10,14,19	11
49	बदरवास	20	12,18	1,19	4	2	16,17	3	15,20	3,8,9	5	4,5,6,7,10	11,13,14	8
50	खेरवास	19	3,4	5,14,19	5	12	7	2	16,17	6,10,18	5	1,2,8,11	9,13,15	7
51	चौमुहा	11	2	-	1	7	1,8	3	11	3,10	3	4,9	5,6	4
52	ढला	20	10	7,11	3	14,16	8,9	4	4,13	1,6,20	5	2,5,15,17,19	3,12,18	8
53	महोबाडामरोन	20	12,16	8,10	4	9	-	1	11,17	15,18,20	5	1,4,5,6,7	2,3,13,14,19	10
54	भौंती	20	10,15	11,16	4	-	-	0	1,3	8,18,20	5	5,6,13,14,17,19	2,4,7,9,12	11
55	तिंधारी	20	5,17	11,12,13	5	-	-	0	6,19	1,15,20	5	3,7,8,9,14	2,4,10,16,18	10
56	बामौरडामरोन	20	1,10	9,16	4	-	-	0	11,18	3,7,14	5	2,6,12,13,19,20	4,5,8,15,17	11
57	पिपारा	20	1	11,13	3	7	2	2	6,15	5,14,18	5	3,4,8,10,12,16	9,17,19,20	10
58	मुहार	16	4,6	3,5	4	16	15	2	8,9	11,14	4	1,7,10	2,12,13	6
59	दवियागोविन्द	11	7	4	2	-	-	0	8	2,3	3	5,6,10	1,9,11	6
60	सलैया	15	13	1,14	3	3,5	6,12	4	2,4	10,11	4	7,8	9,15	4
61	बिरोली	14	2	1	2	12	11,13	3	8,14	5,7	4	3,4,6	9,10	5
62	देवगढ़	15	1	7	2	15	9,14	3	8,11	3,5	4	2,10,13	4,6,12	6
63	करारखेड़ा	20	3	2	2	19	9,10	3	7,18	1,12,20	5	4,5,13,14,15,17,19	6,8,11,16	10
64	पारेश्वर	20	14	8	2	-	-	0	3,20	2,4,16	5	1,5,7,9,10,15,18	6,11,12,13,17,19	13
65	हिम्मतपुर	15	1,11,14	3,4,5,10	7	-	-	0	7,8	12,13	4	2,9	6,15	4
66	सुजावनी	12	10	7,9	3	8	-	1	11	1,2	3	3,5,12	4,6	5
67	बदरखा	20	4	1,3	3	17	11	2	2,20	8,10,12	5	5,7,14,15,16,19	6,9,13,18	10
68	भुवनेश्वर	14	11	8,10	3	2,12,13	4,9,14	6	-	-	0	3,5,7	1,6	5
69	रूपेपुर	10	-	-	0	-	-	0	5	3,7	3	2,4,6,10	1,8,9	7
70	गौचोनी	14	2	-	1	-	-	0	3,9	11,13	4	1,4,8,12	5,6,7,10,14	9
71	धौरा	10	6	-	1	8	7,10	3	3	4,5	3	1,9	2	3
72	नयाखेडा	10	5	-	1	-	-	0	3	6,8	3	1,2,9	4,7,10	6
73	आगरा	20	3	5,18	3	8	10	2	14,20	7,15,19	5	1,4,6,9,12,17	2,11,13,16	10
74	बमेरा	11	6	-	1	-	-	0	8	5,10	3	1,4,7	2,3,9,11	7
75	बिलरई	10	10	8	2	-	-	0	7	1,2	3	4,5,6	3,9	5
योग . .		1236	99	117	216	86	95	181	122	173	295	302	242	544

	कुल	मुक्त	महिला
अ.जा.	216	99	117
अ.ज.जा.	181	86	95
अ.पि.व.	295	122	173
अना.	544	302	242
	1236	609	627

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. /पं.निर्वा.-आरक्षण-2009.—में, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(4), (5) के अनुसार अन्य पिछड़ावर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13(5)(6) के लिए चक्रानुक्रम से दिनांक 19, 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत, खनियाधाना के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नं. (3) में दर्शाये गये वार्डों को अ.जा., अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक (1)	नाम ग्राम पंचायत (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है (3)
1.	गुरैया	09 अ.जा. 06 अ.जा. महिला 02 अ.ज.जा. 03 अ.ज.जा. 16 अ.ज.जा. 1 अ.ज.जा. महिला 4 अ.ज.जा. महिला 11 अ.ज.जा. महिला 10 पिछड़ा वर्ग 12 पिछड़ा वर्ग 5 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 7 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
2.	मंसूरी	1 अ.जा. 4 अ.जा. महिला 17 अ.ज.जा. 18 अ.ज.जा. 4 अ.ज.जा. महिला 5 अ.ज.जा. महिला 6 अ.ज.जा. महिला 9 पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 11 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
3.	धिलौदरा	4 अ.जा. 3 अ.जा. महिला 2 अ.ज.जा.

(1)	(2)	(3)
		1 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
4.	तेरई	13 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा. महिला
		11 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		7 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा.
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		1 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
5.	पहाड़ाखुर्द	10 अ.जा.
		13 अ.जा.
		17 अ.जा.
		6 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
6.	मुहांसा	7 अ.ज.जा.
		8 अ.ज.जा. महिला
		9 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
7.	पिपरौदाआलम	8 अ.ज.जा.		
		5 अ.ज.जा. महिला		
		16 अ.ज.जा.		
		6 अ.ज.जा. महिला		
		17 अ.ज.जा. महिला		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		18 पिछड़ा वर्ग		
		1 पिछड़ा वर्ग महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग महिला		
		7 पिछड़ा वर्ग महिला		
		9 अनारक्षित		
		10 अनारक्षित		
		11 अनारक्षित		
		19 अनारक्षित		
		8.	खड़ीचरा	8 अ.जा. महिला
				10 अ.ज.जा.
				13 अ.ज.जा.
				11 अ.ज.जा. महिला
				12 अ.ज.जा. महिला
14 अ.ज.जा. महिला				
1 पिछड़ा वर्ग				
5 पिछड़ा वर्ग				
2 पिछड़ा वर्ग महिला				
7 पिछड़ा वर्ग महिला				
6 अनारक्षित महिला				
9.	महुआ			11 अ.जा.
				3 अ.जा. महिला
				19 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला		
		1 पिछड़ा वर्ग		
		6 पिछड़ा वर्ग		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		8 पिछड़ा वर्ग महिला		
		9 पिछड़ा वर्ग महिला		
		12 पिछड़ा वर्ग महिला		
		2 अनारक्षित महिला		
		5 अनारक्षित महिला		
		7 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
10.	वधारी	3 अ.जा. महिला		
		11 अ.ज.जा.		

(1)	(2)	(3)
		13 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
11.	पचराई	6 अ.जा. महिला
		7 अ.ज.जा.
		3 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
12.	मायापुर	9 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		11 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
13.	बुधौनराजापुर	5 अ.जा.
		12 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		3 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा.
		2 अ.ज.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		11 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
14.	पिपरौदाउवारी	6 अ.जा.
		8 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
15.	भौड़न	3 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		4 अ.ज.जा.
		11 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
16.	अहारवानपुर	5 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
17.	हरथोन	8 अ.ज.जा.		
		4 अ.ज.जा. महिला		
		5 अ.ज.जा. महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग		
		14 पिछड़ा वर्ग		
		1 पिछड़ा वर्ग महिला		
		3 पिछड़ा वर्ग महिला		
		6 पिछड़ा वर्ग महिला		
		12 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		18.	पातीचक	1 अ.जा.
				13 अ.जा. महिला
				7 अ.ज.जा.
10 अ.ज.जा.				
12 अ.ज.जा.				
8 अ.ज.जा. महिला				
9 अ.ज.जा. महिला				
11 अ.ज.जा. महिला				
2 अनारक्षित महिला				
3 अनारक्षित महिला				
4 अनारक्षित महिला				
13 अ.ज.जा.				
14 अ.ज.जा.				
16 अ.ज.जा.				
5 अ.ज.जा. महिला				
19.	अमुहाय	6 अ.ज.जा. महिला		
		09 अ.ज.जा. महिला		
		12 पिछड़ा वर्ग		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		1 पिछड़ा वर्ग महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग महिला		
		3 अनारक्षित महिला		
		4 अनारक्षित महिला		
		11 अनारक्षित महिला		
		20.	गोलाकोट	11 अ.जा.
10 अ.जा. महिला				
5 अ.ज.जा.				
8 अ.ज.जा.				
6 अ.ज.जा. महिला				
9 अ.ज.जा. महिला				
13 पिछड़ा वर्ग				
15 पिछड़ा वर्ग				
2 पिछड़ा वर्ग महिला				

(1)	(2)	(3)
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
21.	गताझलकुई	3 अ.ज.जा.
		6 अ.ज.जा.
		12 अ.ज.जा.
		4 अ.ज.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		11 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
22.	हिण्डोराखेड़ी	10 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा. महिला
		5 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
23.	ऐरावती	11 अ. जा.
		2 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
24.	सुलारकंला	6 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा.
		3 अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		10 अ.ज.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
25.	कालीपहाड़ी च.	9 अ. जा.
		4 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा.
		1 अ.ज.जा. महिला
		15 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
26.	खैरोदा	1 अ.जा. महिला
		8 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा. महिला
		11 अ.ज.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
27.	भरसूला	9 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		7 अ.ज.जा. महिला
		11 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
28.	विशनपुरा	9 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		3 अ.ज.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
29.	बामौरकंला	2 अ.जा.
		17 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
30.	पिपरा	3 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		2 अ.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
31.	खिसलोनी	1 अ.जा. महिला
		3 अ.ज.जा.
		2 अ.ज.जा. महिला
		12 अ.ज.जा. महिला
		9 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
32.	कफार	4 अ.जा.

(1)	(2)	(3)
		10 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		3 अ.जा. महिला
		13 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
33.	नयागांव पिपरा	5 अ.जा. महिला
		1 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
34.	विजरावन	15 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		2 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
35.	वनखेडा	12 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा.
		5 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
36.	नदावन	10 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा.
		8 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
37.	झालोनी	15 अ.जा.
		17 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा.
		3 अ.ज.जा. महिला
		4 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
38.	गूडर	5 अ.जा.
		19 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		20 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा.
		13 अ.ज.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		18 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
39.	देवखी	9 अ.जा.
		19 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		2 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		15 अ.ज.जा.
		14 अ.ज.जा. महिला
		17 अ.ज.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
40.	नदनवारा	5 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
41.	सिलपुरा	15 अ.जा.
		18 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा. महिला
		8 अ.ज.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
42.	ओडी	10 अ.जा.
		11 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
43.	पोठयाई	5 अ.जा.
		7 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		6 अ.जा. महिला
		3 अ.ज.जा. महिला
		14 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
44.	गणेशखेड़ा	14 अ.जा.
		16 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा.
		1 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
45.	पनिहारा	2 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा.
		11 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा. महिला
		8 अ.ज.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
46.	मेहरोली	9 अ.जा.		
		10 अ.जा. महिला		
		11 अ.ज.जा. महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		5 पिछड़ा वर्ग महिला		
		12 पिछड़ा वर्ग महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		7 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
		47.	सिनावलकंला	2 अ.जा.
				1 अ.जा. महिला
				3 पिछड़ा वर्ग
6 पिछड़ा वर्ग महिला				
10 पिछड़ा वर्ग महिला				
5 अनारक्षित महिला				
9 अनारक्षित महिला				
12 अनारक्षित महिला				
48.	देवरी	4 अ.जा.		
		9 अ.जा. महिला		
		7 पिछड़ा वर्ग		
		8 पिछड़ा वर्ग		
		1 पिछड़ा वर्ग महिला		
		5 पिछड़ा वर्ग महिला		
		2 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		11 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
		49.	पुरा	15 अ.जा.
				9 अ.जा. महिला
				10 अ.जा. महिला
6 अ.ज.जा.				
7 अ.ज.जा.				
5 अ.ज.जा. महिला				
16 अ.ज.जा. महिला				
12 पिछड़ा वर्ग				
14 पिछड़ा वर्ग				
1 पिछड़ा वर्ग महिला				
2 पिछड़ा वर्ग महिला				
11 पिछड़ा वर्ग महिला				
4 अनारक्षित महिला				
8 अनारक्षित महिला				
19 अनारक्षित महिला				

(1)	(2)	(3)		
50.	धर्मपुरा	1 अ.जा.		
		14 अ.जा. महिला		
		10 अ.ज.जा.		
		11 अ.ज.जा. महिला		
		9 पिछड़ा वर्ग		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		2 पिछड़ा वर्ग महिला		
		3 पिछड़ा वर्ग महिला		
		4 अनारक्षित महिला		
		5 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		16 अनारक्षित महिला		
		51.	पीपलखेड़ा	9 अ.जा.
				10 अ.जा. महिला
13 अ.ज.जा.				
14 अ.ज.जा.				
8 अ.ज.जा. महिला				
2 अ.ज.जा.				
4 पिछड़ा वर्ग				
6 पिछड़ा वर्ग				
3 पिछड़ा वर्ग महिला				
5 पिछड़ा वर्ग महिला				
1 अनारक्षित महिला				
7 अनारक्षित महिला				
52.	बघरवारा	5 अ.जा.		
		6 अ.जा. महिला		
		3 पिछड़ा वर्ग		
		7 पिछड़ा वर्ग		
		2 पिछड़ा वर्ग महिला		
		4 पिछड़ा वर्ग महिला		
		1 अनारक्षित महिला		
		9 अनारक्षित महिला		
		12 अनारक्षित महिला		
53.	वनोटा	2 अ.जा.		
		1 अ.जा. महिला		
		15 अ.ज.जा. महिला		
		4 पिछड़ा वर्ग		
		14 पिछड़ा वर्ग		
		3 पिछड़ा वर्ग महिला		
		5 पिछड़ा वर्ग महिला		
		8 पिछड़ा वर्ग महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		10 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
54.	रही	6 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		16 अ.ज.जा.
		15 अ.ज.जा. महिला
		17 अ.ज.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
55.	नगरेला	3 अ.जा.
		9 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		8 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
56.	दवियाजगन	5 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
57.	वीरपुर	2 अ.जा.
		11 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		15 अ.ज.जा.
		1 अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		5 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
58	कुटावेली	5 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
59	दवियांकला	4 अ.जा.
		8 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		13 अ.ज.जा.
		20 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
60	कुम्हरा	11 अ.जा.
		14 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
61	चमरौआ	11 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		62
11 अ.जा. महिला		
18 अ.ज.जा.		
7 अ.ज.जा. महिला		
16 अ.ज.जा. महिला		
2 पिछड़ा वर्ग		
4 पिछड़ा वर्ग		
3 पिछड़ा वर्ग महिला		
5 पिछड़ा वर्ग महिला		
9 पिछड़ा वर्ग महिला		
14 अनारक्षित महिला		
15 अनारक्षित महिला		
17 अनारक्षित महिला		
63	ममरोनी	14 अ.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
64	बुकरा	5 अ.जा. महिला
		19 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
65	अछरोनी	11 अ.जा.
		20 अ.जा.
		12 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
66	नोहरा	11 अ.जा.
		16 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा.
		3 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
67	क्यारा	1 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
68	बामौरखुर्द	1 अ.जा.
		6 अ.जा.
		13 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		8 अ.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		15 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
69	टालापहाड़ी	9 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
70	पहाड़पुर	2 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
71	खजरा	7 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
72	वसाहर	6 अ.जा.		
		4 अ.जा. महिला		
		5 अ.जा. महिला		
		7 अ.ज.जा.		
		8 अ.ज.जा. महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग		
		11 पिछड़ा वर्ग		
		1 पिछड़ा वर्ग महिला		
		3 पिछड़ा वर्ग महिला		
		9 अनारक्षित महिला		
		10 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
		16 अनारक्षित महिला		
		73	खिरकिट	13 अ.जा.
				7 अ.जा. महिला
				11 अ.ज.जा. महिला
2 पिछड़ा वर्ग				
3 पिछड़ा वर्ग				
4 पिछड़ा वर्ग महिला				
5 पिछड़ा वर्ग महिला				
6 अनारक्षित महिला				
8 अनारक्षित महिला				
9 अनारक्षित महिला				
10 अनारक्षित महिला				
74	मुहारीकंला	1 अ.जा.		
		4 अ.जा. महिला		
		9 अ.ज.जा. महिला		
		2 पिछड़ा वर्ग		
		3 पिछड़ा वर्ग		
		6 पिछड़ा वर्ग महिला		
		7 पिछड़ा वर्ग महिला		
		12 पिछड़ा वर्ग महिला		
		5 अनारक्षित महिला		
		8 अनारक्षित महिला		
		11 अनारक्षित महिला		
14 अनारक्षित महिला				
17 अनारक्षित महिला				
75	रेडीहिम्मतपुर	3 अ.जा.		
		4 अ.जा. महिला		
		9 अ.जा. महिला		
		15 अ.ज.जा. महिला		

(1)	(2)	(3)
		10 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
76	सुजवाहा	3 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
77	गजोरा	18 अ.जा.
		19 अ.जा. महिला
		20 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
78	मानपुर	10 अ.जा.
		6 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा. महिला
		17 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		14 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
79	खुरई	5 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा.
		20 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा. महिला
		19 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
80	भितरगंवा	6 अ.जा.
		7 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		8 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा.
		3 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
81	कालीपहाडी डा.	11 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		8 अ.ज.जा.
		9 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा. महिला
		13 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
82	मनका	14 अ.जा. 8 अ.जा. महिला 4 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 2 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 5 अनारक्षित महिला 7 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला
83	चन्द्रूपहाड़ी	10 अ.जा. 4 अ.जा. महिला 11 अ.जा. महिला 6 अ.ज.जा. 13 अ.ज.जा. महिला 8 पिछड़ा वर्ग 9 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 7 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
84	देवखेड़ा	7 अ.जा. 6 अ.जा. महिला 3 अ.ज.जा. 1 अ.ज.जा. महिला 2 अ.ज.जा. महिला 14 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 9 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला
85	कमालपुर	4 अ.जा. 5 अ.जा. महिला 20 अ.जा. महिला 11 अ.ज.जा. महिला 13 पिछड़ा वर्ग 14 पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग महिला 2 पिछड़ा वर्ग महिला 6 पिछड़ा वर्ग महिला 12 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
86	जुंगीपुर	11 अ.जा.
		1 अ.जा महिला
		8 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
87	वण्डा	8 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा.
		9 अ.ज.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
88	गरेठा	7 अ.जा.
		6 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		20 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
89	पडरा	5 अ.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		1 पिछड़ा वर्ग
		18 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
90	गूगरी	8 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
91	रैबई	13 अ.जा.
		17 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
92	लहरा	12 अ.जा.
		13 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		6 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		1 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
93	मुडिया	2 अ.जा.
		3 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा. महिला
		5 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
94	निवोदा	9 अ.जा.
		2 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
95	दिदावनी	5 अ.ज.जा.
		4 अ.ज.जा. महिला
		6 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
96	हसरी	2 अ.जा.
		6 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		13 अ.जा. महिला
		11 अ.ज.जा.
		9 अ.ज.जा. महिला
		10 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
97	हर्सपुरा	11 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
98	अमरपुरदेवरा	5 अ.जा. महिला
		2 अ.ज.जा.
		1 अ.ज.जा. महिला
		8 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
99	इमलिया	8 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		9 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
100	मुहारीखुर्द	12 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अ.ज.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
101	नयागांव गजोरा	20 अ.जा.
		15 अ.जा. महिला
		3 अ.ज.जा. महिला
		6 अ.ज.जा.
		1 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

जनपद पंचायत खनियाना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों का आरक्षण संबंधी चार्ट

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में कुल वार्डों की संख्या (3)	अ.जा.वार्ड		अ.जा.वा. वार्ड		अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित		
			मुक्त (4)	महिला (5)	कुल (6)	मुक्त (7)	महिला (8)	कुल (9)	मुक्त (10)	महिला (11)	कुल (12)	मुक्त (13)	महिला (14)	कुल (15)
1	गुरैया	16	9	6	2	2,3,16	1,4,11	6	10,12	5,8	4	14,15	7,13	4
2	मसूरी	18	1	14	2	17,18	4,5,6	5	9,10	2,11,8	5	3,13,16,7	12,15	6
3	खिलोदरा	14	4	3	2	2	1	2	6,10	7,13	4	12,8,9	5,11,14	6
4	तेरई	16	-	13	1	7,10	9,11,12	5	3,6	8,14	4	5,15,16,4	1,2	6
5	पहाड़ाखुर्द	18	10,13,17	6,9,12	6	-	-	-	2,8,16	1,3	5	4,18,15,7	11,14,5	7
6	मुहासा	14	-	-	-	7	8	2	9,10	1,2	4	5,6,13,14	3,4,11,12	8
7	पिपरोदाआलम	19	8	5	2	16	6,17	3	15,18	1,2,7	5	3,4,12,13,14	9,10,11,19	9
8	खडीचरा	14	-	8	1	10,13	11,12,14	5	1,5	2,7	4	9,4,3	6	4
9	महुआ	19	11	3,19	3	-	10	1	1,6,15	8,9,12	6	4,13,16,17,18	2,5,7,14	9
10	बधारी	15	-	3	1	11,13	10,12,14	5	1,6	4,7	4	8,9,15	2,5	5
11	पचराई	12	-	6	1	7	3	2	2	1,10	3	4,5,12,9	8,11	6
12	मायापुर	17	-	-	-	9,13	10,11,12	5	6,7	1,4	4	3,14,15,2	8,5,16,17	8
13	बुधोनराजापुर	19	5	12,15	3	3,7,13	19,2,14	6	10,11	1,4,6	5	8,9,18	16,17	5
14	पिपरोदाखारी	18	6,8	3,7	4	-	10	1	2,14,15	1,5,11	6	4,16,17,18	9,12,13	7
15	भोडन	15	3	2	2	4,11	12,13	4	1,8	5,6	4	10,14	7,9,15	5
16	अहारवानपुर	13	5	2,13	3	-	9	1	3	8,10	3	6,7,11,1	4,12	6
17	हरथौन	14	-	-	-	8	4,5	3	2,14	1,3,6	5	7,9,10,11	12,13	6
18	पतीचक	13	1	13	2	7,10,12	8,9,11	6	-	-	-	5,6	2,3,4	5
19	अमुहाय	15	-	-	-	13,14,10	5,6,9	6	12,15	1,2	4	7,8	11,3,4	5
20	गोलाकोट	15	11	10	2	5,8	6,9	4	13,15	2,4	4	1,12	3,7,14	5
21	गताझलकुई	14	-	-	-	3,6,12	4,5,13	6	1,8	10,14	4	9,11	2,7	4
22	हिडोराखेड़ी	11	10	1,11	3	-	6	1	5	3,9	3	2,8	4,7	4
23	ऐरावती	19	11	2	2	10	19	2	1,3	7,12,14	5	8,9,13,16,18	4,5,6,15,17	10
24	सुवारकलां	12	6	5	2	9	3,10	3	8	1,4	3	2,7,12	11	4
25	कालीपहाड़ी च.	16	9	4,7	3	10	1,15	3	2,14	3,5	4	12,13,16,6	8,11	6
26	खैरोदा	13	-	1	1	8	7,11	3	13	2,3	3	4,5,9,12	6,10	6
27	भरसूला	13	9	10	2	-	7	1	11	1,2	3	3,12,13,4	5,6,8	7
28	विशनपुरा	16	9	5,10	3	-	3	1	13,14	1,2,4	5	16,8,7,6	11,12,15	7
29	बामौरकलां	20	2,17	3,10,16	5	-	15	1	1,6	4,7,9	5	11,13,14,5,8,19	12,18,20	9
30	पिपरा	20	4	1,3,9	4	-	-	-	2,6,13	5,7	5	8,11,12,10,17,18	14,15,19,20,16	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
31	खिसलोनी	17	-	1	1	3	2,12	3	9,13	4,5	4	11,15,16,17,7	10,14,6,8	9
32	कफार	19	10,4	2,3	4	13	14	2	6,18	1,5,7	5	9,12,16,19,8	11,17,15	8
33	नयागांव पिपरा	13	-	5	1	-	1	1	2	8,9	3	3,6,11,13,4	7,10,12	8
34	विजयवन	20	15	1,14	3	18	2	2	4,5	3,12,19	5	7,10,13,17,20,16	6,8,9,11	10
35	बनखेड़ा	12	12	4,11	3	6	5	2	2	1,3	3	8,9,10	7	4
36	नदावन	11	10	7,11	3	9	8	2	6	2,5	3	1,4	3	3
37	झालौनी	20	15	17	2	5	3,4	3	6,16	1,2,7	5	8,19,13,14,20,10	11,9,18,12	10
38	गूडर	20	5,19	1,20	4	15	13,16	3	17,18	2,3,4	5	6,9,12,14,7	8,10,11	8
39	देवखो	20	9,19	1,2	4	15	14,17	3	8,18	3,4,5	5	7,10,16,20,6	11,12,13	8
40	नदानवारा	17	5	4	2	-	-	-	1,6	2,3,7	5	8,9,10,14,15	11,12,13,16,17	10
41	सिलपुरा	20	15,18	4,16	4	9	7,8	3	12,17	13,19,20	5	2,3,6,14,1	5,10,11	8
42	ओडी	14	10	11	2	-	5	1	4,12	1,2	4	3,7,9,14	6,8,15	7
43	पोठयाई	15	5,7	4,6	4	-	3	1	14,15	1,8	4	2,10,12	11,13,9	6
44	गणेशखेड़ा	16	14	16	2	2	1	2	10,13	3,4	4	11,15,7,9	6,12,5,8	8
45	पनिहारा	16	2	3	2	9,16,11	7,8,10	6	14,13	4,5	4	6,15	12,1	4
46	महरोली	15	9	10	2	-	11	1	15,2	5,12	4	1,8,3,4	14,13,6,7	8
47	सिनावलकलां	12	2	1	2	-	-	-	3	10,6	3	8,7,11,4	5,9,12	7
48	देवरी	15	4	9	2	-	-	-	7,8	1,5	4	10,15,12,3	6,11,2,13,14	9
49	पुरा	20	15	9,10	3	6,7	5,16	4	12,14	1,2,11	5	18,13,20,17,3	4,8,19	8
50	धर्मपुरा	16	1	14	2	10	11	2	9,15	2,3	4	7,12,13,8	4,5,6,16	8
51	पीपलखेड़ा	14	9	10	2	13,14	2,8	4	4,6	3,5	4	11,12	1,7	4
52	कधरवारा	12	5	6	2	-	-	-	3,7	2,4	4	8,11,10	1,9,12	6
53	बनोटा	20	2	1	2	-	15	1	4,14	3,5,8	5	9,17,18,7,16,12,20	6,10,11,13,19	12
54	रही	17	6	9	2	16	15,17	3	7,12	4,5	4	1,2,3,13	10,8,11,14	8
55	नारोला	17	3,9	4,8,10	5	-	2	1	10,7	1,6	4	13,12,17,11	5,14,15	7
56	दवियाजगन	13	-	5	1	-	6	1	10	13,4	3	11,38,1,2	7,12,9	8
57	वीरपुर	15	11,2	3,9	4	15	1	2	5,8	7,4	4	12,10	6,13,14	5
58	कुटावली	13	5	9,12	3	-	-	-	7	2,3	3	10,1,13,11	4,6,8	7
59	दवियाकलां	20	8,4	3,9	4	13	20	2	1,5	2,6,7	5	11,15,19,17,18	10,12,14,16	9
60	कुम्हरा	16	11,14	9,10	4	-	-	-	2,13	15,8	4	16,7,5,1	3,6,12,4	8
61	चमरोआ	20	11	16,5	3	-	2	1	6,7	17,10,20	5	13,12,3,9,18,15,19	4,8,14,1	11
62	रिखई	18	8	11	2	18	7,16	3	2,4	3,5,9	5	13,10,12,6,1	17,14,15	8
63	ममरोनी	16	-	14	1	-	-	-	3,6	1,2	4	11,13,15,7,16,4	5,8,9,12,10	11
64	बुकरा	20	-	5	1	-	-	-	19,20	4,9,10	5	3,8,17,2,18,6,7,1	11,12,13,14,15,16	14
65	अछरोनी	20	11,20	13,12,14	5	-	5	1	15,10	1,6,8	5	4,19,2,16,17,9	3,7,18	9
66	मोहरा	20	11	16	2	2	3	2	1,7	14,17,20	5	5,19,18,6,4,9	8,13,15,10,12	11
67	बयारा	14	1	13,3	3	-	2	1	12,14	5,8	4	7,4,9,6	11,10	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
68	बामौरखुर्द	16	13,16	2,7,8	6	-	16	1	15	3,4	3	9,14,5,12	10,11	6
69	टालापहाड़ी	10	9	5	2	-	6	1	4	1,3	3	10,7,8	2	4
70	पहाड़पुर	14	2	1	2	-	6	1	7,10	5,8	4	3,4,12,11	9,14,13	7
71	खजरा	11	7	1	2	-	5	1	2	3,9	3	6,8,10	11,4	5
72	वसाहर	18	6	4,5	3	7	8	2	2,11	1,3	4	15,18,13,17,12	14,9,16,10	9
73	खिरकट	16	13	7	2	-	11	1	2,3	4,5	4	12,15,14,1,16	6,8,9,10	9
74	मुहारीकलां	20	1	4	2	-	9	1	2,3	6,7,12	5	10,15,20,16,13,19,18	5,8,11,14,17	12
75	रेडीहिम्मतपुर	17	3	4,9	3	-	15	1	10,12	5,6	4	14,17,2,16,1	7,8,11,13	9
76	सुजवाहा	13	3	9	2	-	5	1	1	11,7	3	12,13,8,2	10,6,4	7
77	गजौरा	20	18	19	2	-	20	1	1,11,2	3,4	5	17,5,14,13,12,16	6,7,8,9,10,15	12
78	मानपुर	19	10	11,6	3	18	17,16	3	5,2,4	1,3	5	15,13,7,12	8,9,14,19	8
79	खुरई	20	5	4	2	20,10	16,19	4	11,14,3	6,8	5	1,18,7,17	9,12,13,2,15	9
80	भितरगुवा	14	6,7	4,8	4	5	3	2	2,9	10,13	4	1,12	11,14	4
81	कालीपहाड़ी डा.	17	11	10,12	3	9,8	7,13	4	2,4	1,3	4	15,5,6	17,14,16	6
82	मनका	14	14	8	2	-	-	-	4,9	1,2	4	10,6,11,13	3,5,7,12	8
83	चन्द्रपहाड़ी	15	10	4,11	3	6	13	2	8,9	2,7	4	1,3,5	14,12,15	6
84	देवखंडा	16	7	6	2	3	1,2	3	14,16	4,8	4	12,15,10,5	9,11,13	7
85	कमालपुर	20	4	5,20	3	-	11	1	13,14	12,6	5	17,18,10,3,8,7,9	15,19,16,12	11
86	जुंगीपुर	19	11	1	2	-	8	1	3,4	10,15,19	5	7,18,2,14,17,16	5,6,9,12,13	11
87	वाण्डा	11	-	8	1	6	9,10	3	4,1	3	3	2,7	11,5	4
88	गैठा	20	7	6,12	3	9	10,20	3	1,16,17	3,4	5	19,8,14,2,18	5,11,15,13	9
89	पडरा	20	-	5	1	-	16	1	1,20,18	2,4	5	3,6,17,14,15,11,19	7,9,10,12,13,8	13
90	गुरी	15	8	5,11	3	-	10	1	4,15	1,2	4	6,13,7,14	3,9,12	7
91	रेवई	20	13,17	5,10,16	5	-	-	-	2,14	1,4,7	5	15,18,3,12,20,6	8,9,11,19	10
92	लहारा	20	12,13	5,6,7	5	-	14	1	1,16,20	2,3	5	11,9,18,4,15	8,17,19,10	9
93	मुडिया	15	2,3	1,10	4	-	9	1	5,8	4,7	4	14,11,12	15,6,13	6
94	निबोदा	10	-	9	1	-	2	1	3,4	7	3	5,1,8	6,10	5
95	दिदावनी	10	-	-	-	5	4,6	3	3,8	9	3	10,2	1,7	4
96	हसरा	16	2,6	1,12,13	5	11	9,10	3	8,15,4	5	4	7,14	3,16	4
97	हर्षपुरा	15	11	10	2	-	-	-	4,9	1,3	4	14,5,8,12	2,6,7,13,15	9
98	अमरपुर देवरा	12	-	5	1	2	1,8	3	10,6	4	3	3,7,9	11,12	5
99	इमलिया	12	8	7	2	-	9	1	1	3,4	3	6,5,10,11	12,2	6
100	मुहारीखुर्द	16	-	12	1	9	10	2	1,7	14,8	4	11,16,5,4,2	3,6,13,15	9
101	नयागांव गजौरा	20	20	15	2	6	3	2	1,5,11	4,9	5	13,18,2,7,19	10,12,14,16,17,8	11
	कुल योग	1622	101	145	246	77	135	212	194	224	418	420	326	746

शिवपुरी, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. /पंचा.निर्वा.-आरक्षण-2009.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (4) एक एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वर्गों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम से तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(4)(5) के अनुसार अन्य पिछड़ावर्ग एवं महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13(5)(6) के लिए चक्रानुक्रम से दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में लॉट निकालकर जनपद पंचायत नरवर के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के लिये सारणी के कॉलम नं. (3) में दर्शाये गये वार्डों को अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्ड क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये आरक्षित है. (3)
1.	पीपलखाड़ी	14 अ.जा. 12 अ.जा. महिला 13 अ.जा. महिला 1 अ.ज.जा. 2 अ.ज.जा. 8 अ.ज.जा. 3 अ.ज.जा. महिला 4 अ.ज.जा. महिला 5 अ.ज.जा. महिला 10 अ.ज.जा. महिला 7 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला
2.	ख्यावदा	18 अ.जा. 49 अ.जा. महिला 2 अ.ज.जा. 7 पिछड़ा वर्ग 16 पिछड़ा वर्ग 4 पिछड़ा वर्ग महिला 9 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 5 अनारक्षित महिला 6 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 11 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
9	किशनपुर	5 अ.जा. 8 अ.जा. 4 अ.जा. महिला 7 अ.जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 15 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
10	देवरीखुर्द	2 अ.जा.
		8 अ.जा.
		6 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		14 अ.ज.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
11	बीलोनी	1 अ.जा.
		10 अ.ज.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
12	करुआ	6 अ.जा.
		7 अ.जा.
		14 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		18 अ.ज.जा.
		19 अ.ज.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		10 अनारक्षित महिला
13.	पनानेर	10 अ.जा. 13 अ.जा. महिला 5 पिछड़ा वर्ग 20 पिछड़ा वर्ग 7 पिछड़ा वर्ग महिला 15 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 2 अनारक्षित महिला 3 अनारक्षित महिला 4 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला 18 अनारक्षित महिला
14.	ढिगवासा	6 अ.जा. 4 अ.जा. महिला 11 अ.ज.जा. 10 अ.ज.जा. महिला 13 अ.ज.जा. महिला 12 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 8 पिछड़ा वर्ग महिला 1 अनारक्षित महिला 9 अनारक्षित महिला
15.	सिमिरिया	6 अ.जा. 9 अ.जा. 10 अ.जा. महिला 11 अ.जा. महिला 13 पिछड़ा वर्ग 18 पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग महिला 4 पिछड़ा वर्ग महिला 16 पिछड़ा वर्ग महिला 3 अनारक्षित महिला 8 अनारक्षित महिला 14 अनारक्षित महिला 17 अनारक्षित महिला
16.	ठाटी	5 अ.जा. 6 अ.जा. 7 अ.जा. महिला 8 अ.जा. महिला 1 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
17.	जैतपुर	6 अ.जा.
		15 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
18.	जुझाई	9 अ.जा.
		8 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		16 पिछड़ा वर्ग
		19 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
19.	कोंडर	7 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		8 अ.जा. महिला
		11 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
20.	थरखेड़ा	8 अ.जा.
		18 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		10 अ.जा. महिला
		3 अ.जा.
		6 अ.जा.
		16 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		5 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
21.	नयागांव	8 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
22.	सोन्हर	11 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		20 अ.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
23.	ग्वालिया	4 अ.जा.
		9 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		6 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		12 अ.ज.जा.
		11 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
24.	गनियार	2 अ.जा.
		6 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
25.	नरौआ	12 अ.जा.
		15 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		5 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
26.	इंदरगढ़	15 अ.जा.
		16 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		6 अ.ज.जा.
		7 अ.ज.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
27.	करही	4 अ.जा.
		7 अ.जा.
		15 अ.जा. महिला
		19 अ.जा. महिला
		16 अ.ज.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		2 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
28.	छितरी	1 अ.जा.
		4 अ.जा.
		18 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		5 अ.जा. महिला
		17 अ.जा. महिला
		19 अ.जा. महिला
		20 अ.ज.जा.
		7 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
15 अनारक्षित महिला		
16 अनारक्षित महिला		
29.	धमधौली	2 अ.जा.
		11 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		6 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		9 पिछड़ा वर्ग
		15 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
8 अनारक्षित महिला		
14 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)
30	बहगवां	6 अ.जा.
		9 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		17 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
31	सीहोर	1 अ.जा.
		14 अ.जा.
		11 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		3 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
32	कालीपहाड़ी	15 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		12 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
33.	सावोली	17 अ.जा.
		18 अ.जा. महिला
		9 पिछड़ा वर्ग
		19 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
		34.
7 अ.जा.		
12 अ.जा.		
8 अ.जा. महिला		
9 अ.जा. महिला		
10 अ.जा. महिला		
11 अ.जा. महिला		
3 पिछड़ा वर्ग		
20 पिछड़ा वर्ग		
2 पिछड़ा वर्ग महिला		
15 पिछड़ा वर्ग महिला		
17 पिछड़ा वर्ग महिला		
5 अनारक्षित महिला		
14 अनारक्षित महिला		
19 अनारक्षित महिला		
35.	कैखोदा	6 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		3 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
36	फूलपुर	8 अ.जा.
		9 अ.जा.
		14 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला

(1)	(2)	(3)
		12 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		5 अ.ज.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
37.	बिची	9 अ.जा.
		6 अ.ज.जा.
		5 अ.ज.जा. महिला
		7 अ.ज.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
38.	हतेड़ा	1 अ.जा.
		14 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		11 अ.ज.जा.
		6 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
39	बडगोर	1 अ.जा.
		12 अ.जा.
		17 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		20 अ.जा. महिला
		10 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला

(1)	(2)	(3)
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
40	सुनारी	13 अ.जा.
		15 अ.जा.
		12 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		18 पिछड़ा वर्ग महिला
		19 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
41	भैंसा	6 अ.जा.
		7 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		12 अ.जा. महिला
		11 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
42	पपरेडू	18 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		6 अ.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
43	दौनी	9 अ.जा.
		8 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		13 पिछड़ा वर्ग
		17 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		16 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
44	दिहायला	2 अ.जा.
		7 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		17 अ.जा. महिला
		15 पिछड़ा वर्ग
		19 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		6 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
45.	राजपुर	2 अ.जा.
		3 अ.जा.
		15 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		4 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)		
46.	खड़ीचा	1 अ.जा.		
		10 अ.जा.		
		9 अ.जा. महिला		
		11 अ.जा. महिला		
		6 पिछड़ा वर्ग		
		15 पिछड़ा वर्ग		
		8 पिछड़ा वर्ग महिला		
		16 पिछड़ा वर्ग महिला		
		7 अनारक्षित महिला		
		12 अनारक्षित महिला		
		13 अनारक्षित महिला		
		17 अनारक्षित महिला		
		18 अनारक्षित महिला		
		47.	नैनागिर	1 अ.जा.
				12 अ.जा.
				2 अ.जा. महिला
				8 अ.जा. महिला
				20 अ.जा. महिला
17 पिछड़ा वर्ग				
19 पिछड़ा वर्ग				
13 पिछड़ा वर्ग महिला				
15 पिछड़ा वर्ग महिला				
16 पिछड़ा वर्ग महिला				
4 अनारक्षित महिला				
6 अनारक्षित महिला				
10 अनारक्षित महिला				
14 अनारक्षित महिला				
48.	फतेहपुर	1 अ.जा.		
		2 अ.जा. महिला		
		3 अ.जा. महिला		
		8 पिछड़ा वर्ग		
		13 पिछड़ा वर्ग		
		7 पिछड़ा वर्ग महिला		
		15 पिछड़ा वर्ग महिला		
		4 अनारक्षित महिला		
		5 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
49.	सिलरा	8 अ.जा.		
		10 अ.जा.		
		12 अ.जा.		
		16 अ.जा.		

(1)	(2)	(3)
		17 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		4 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		13 अ.ज.जा.
		1 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
50	बेरखेड़ा	15 अ.जा.
		17 अ.जा.
		18 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		12 अ.ज.जा.
		4 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
51	रमगढ़ा	4 अ.जा.
		11 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		8 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
52	रामनगर	3 अ.जा.
		8 अ.जा.
		10 अ.जा.
		15 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		16 अ.जा. महिला
		11 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		17 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		20 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		19 अनारक्षित महिला
53	झण्डा	2 अ.जा.
		12 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		3 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
		20 अनारक्षित महिला
54	समूहा	19 अ.जा.
		20 अ.जा. महिला
		1 पिछड़ा वर्ग
		14 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
		18 अनारक्षित महिला
55	देहरेटाअव्वल	12 अ.जा.
		14 अ.जा.
		3 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		5 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		9 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
56.	दावरभाट	1 अ.जा.
		14 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		13 अ.जा. महिला
		17 अ.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग
		8 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
57.	चिरली	9 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		14 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
		17 अनारक्षित महिला
58.	टोरियाकला	3 अ.जा.
		10 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		5 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		8 पिछड़ा वर्ग
		12 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		7 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
59.	ढकुरई	8 अ.जा.
		11 अ.जा.
		6 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		12 अ.ज.जा.
		14 पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(3)
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		9 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
60.	टोरियाखुर्द	12 अ.जा.
		10 अ.जा. महिला
		11 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		1 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला
61.	सड़	2 अ.जा.
		4 अ.जा.
		1 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		17 अ.ज.जा.
		16 अ.ज.जा. महिला
		18 अ.ज.जा. महिला
		14 पिछड़ा वर्ग
		19 पिछड़ा वर्ग
		20 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		15 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		10 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
62.	रोनीजा	1 अ.जा.
		2 अ.जा.
		3 अ.जा.
		4 अ.जा. महिला
		5 अ.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		14 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
		12 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
		16 अनारक्षित महिला
63.	अंदोरा	13 अ.जा.
		8 अ.जा. महिला
		6 पिछड़ा वर्ग
		7 पिछड़ा वर्ग महिला
		11 पिछड़ा वर्ग महिला
		2 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		12 अनारक्षित महिला
64.	लमकना	6 अ.जा.
		8 अ.जा.
		5 अ.जा. महिला
		7 अ.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 अनारक्षित महिला
		11 अनारक्षित महिला
65.	रांवबुजुर्ग	13 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		14 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		10 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		12 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		15 अनारक्षित महिला
66.	बिल्हारीखुर्द	11 अ.जा.
		12 अ.जा.
		9 अ.जा. महिला
		10 अ.जा. महिला
		4 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग
		2 पिछड़ा वर्ग महिला
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		14 अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)
67.	सनाई	14 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		3 अ.जा. महिला
		15 पिछड़ा वर्ग
		16 पिछड़ा वर्ग
		13 पिछड़ा वर्ग महिला
		17 पिछड़ा वर्ग महिला
		1 अनारक्षित महिला
		4 अनारक्षित महिला
		7 अनारक्षित महिला
		8 अनारक्षित महिला
68.	सहदोरा	11 अनारक्षित महिला
		8 अ.जा.
		7 अ.जा. महिला
		9 अ.जा. महिला
		2 पिछड़ा वर्ग
		6 पिछड़ा वर्ग महिला
		10 पिछड़ा वर्ग महिला
		3 अनारक्षित महिला
		5 अनारक्षित महिला
		13 अनारक्षित महिला
		69.
10 अ.जा.		
6 अ.जा. महिला		
11 अ.जा. महिला		
16 पिछड़ा वर्ग		
17 पिछड़ा वर्ग		
2 पिछड़ा वर्ग महिला		
15 पिछड़ा वर्ग महिला		
3 अनारक्षित महिला		
8 अनारक्षित महिला		
9 अनारक्षित महिला		
70.	भासडाकला	13 अनारक्षित महिला
		4 अ.जा.
		10 अ.जा.
		14 अ.जा.
		2 अ.जा. महिला
		15 अ.जा. महिला
		7 पिछड़ा वर्ग
		11 पिछड़ा वर्ग
		4 पिछड़ा वर्ग महिला
		9 पिछड़ा वर्ग महिला
		5 अनारक्षित महिला
12 अनारक्षित महिला		

(1)	(2)	(3)		
71.	गोंधारी	13 अनारक्षित महिला		
		16 अनारक्षित महिला		
		15 अ.जा.		
		2 अ.जा. महिला		
		8 पिछड़ा वर्ग		
		9 पिछड़ा वर्ग		
		10 पिछड़ा वर्ग महिला		
		12 पिछड़ा वर्ग महिला		
		4 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		7 अनारक्षित महिला		
		14 अनारक्षित महिला		
		72.	जनोरी	1 अ.जा.
				2 अ.जा. महिला
10 अ.जा.महिला				
13 अ.ज.जा.				
11 पिछड़ा वर्ग				
9 पिछड़ा वर्ग महिला				
12 पिछड़ा वर्ग महिला				
6 अनारक्षित महिला				
7 अनारक्षित महिला				
14 अनारक्षित महिला				
73.	तालभेव	2 अ.जा.		
		12 अ.जा.		
		13 अ.जा.		
		3 अ.जा. महिला		
		8 अ.जा. महिला		
		9 पिछड़ा वर्ग		
		5 पिछड़ा वर्ग महिला		
		7 पिछड़ा वर्ग महिला		
		4 अनारक्षित महिला		
		6 अनारक्षित महिला		
		11 अनारक्षित महिला		
		74.	खुदावली	13 अ.जा.
				11 अ.जा. महिला
12 अ.जा. महिला				
3 पिछड़ा वर्ग				
14 पिछड़ा वर्ग				
15 पिछड़ा वर्ग महिला				
16 पिछड़ा वर्ग महिला				
4 अनारक्षित महिला				
6 अनारक्षित महिला				
7 अनारक्षित महिला				
17 अनारक्षित महिला				

कार्यालय, जनपद पंचायत नखर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
ग्राम पंचायत के वार्डों की जानकारी (वर्ष 2009-2010)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड	अ.जा.वार्ड			अ.ज.जा. वार्ड			पिछड़ा वर्ग वार्ड			अनारक्षित वार्ड	
			मुक्त (4)	महिला (5)	योग (6)	मुक्त (7)	महिला (8)	योग (9)	मुक्त (10)	महिला (11)	योग (12)	मुक्त (13)	महिला (14)
1	पीपलखोड़ी	15	14	12,13	3	1,2,8	3,4,5,10	7	-	-	6,9,11	7,15	5
2	ख्वाबदा	19	18	19	2	2	-	1	4,9,14	5	1,3,6,13,15	5,8,10,11,12,17	11
3	निजामपुर	20	12	1,11	3	20	19	2	7,15,18	5	10,13,4,3,9,14	5,8,16,17	10
4	बरखोड़ी	20	5	2,6	3	7	9	2	8,13,18	5	3,19,20,15,10,14	4,12,16,17	10
5	धीमपुर	20	11	-	1	6,20	5,7	4	1,10,12	5	14,3,17,8,4	13,15,16,18,19	10
6	चक्रामपुर	20	11	10	2	-	-	-	8,12,13	5	14,5,17,6,4,15,18	1,2,7,9,19,20	13
7	कठंगरा	15	14	12,13	3	-	-	-	8,9	4	6,4,1,5	7,10,11,15	8
8	मगरोनी	20	3	4,8	3	-	-	-	5,16,20	5	13,6,7,2,1,10,14	9,12,15,18,19	12
9	किसनपुर	17	5,8	4,7	4	-	-	-	3,14	4	6,17,9,10	1,2,11,13,16	9
10	देवरीखुर्द	18	2,8	6,9	4	-	14	1	5,17	4	4,1,11,10,13	7,12,16,18	9
11	बीलोनी	11	1	-	1	-	10	1	6,11	3	2,3,4	5,7,9	6
12	केरूआ	19	6,7,14	5,15,16	6	18	19	2	8,11,12	5	2,9,17	3,4,10	6
13	पनानेर	20	10	13	2	-	-	-	7,15,16	5	1,6,9,11,14,19,8	2,3,4,12,17,18	13
14	दिगवास	13	6	4	2	11	10,13	3	2,8	3	3,5,7	1,9	5
15	सिमिरिया	18	6,9	10,11	4	-	-	-	2,4,16	5	1,5,7,12,15	3,8,14,17	9
16	ठाटी	12	5,6	7,8	4	-	-	-	3,11	3	2,9,10	4,12	5
17	जैतपुर	18	6	-	1	-	-	-	4,11,18	5	2,3,5,8,10,13	1,7,9,12,14,17	12
18	जुझाई	20	9	8,11	3	-	-	-	1,3,20	5	2,4,6,10,12,13,14	5,7,15,17,18	12
19	कौंडर	14	7	4,8	3	-	-	-	5,13	4	2,3,9,12	1,6,10	7
20	थरखेडा	20	8,18	9,10	4	3,6,16	4,5,15	6	2,11,12	5	7,14,17	13,19	5
21	नयागांव	17	8	9,10	3	-	-	-	11,13	4	3,4,7,14,17	5,6,12,15,16	10
22	सोहर	20	11	7,10	3	-	20	1	2,12,19	5	5,6,9,13,14,15,17	1,3,16,18	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
23	ग्वालिया	14	4,9	5,6	4	12	-	1	11,14	8,13	4	7,10	1,2,3	5
24	गनिया	11	2	-	1	-	-	-	6	4,8	3	1,9,11	3,5,7,10	7
25	नरौआ	20	12,15	10,11	4	-	-	-	5,20	6,10,19	5	1,3,4,8,9,18	2,7,14,16,17	11
26	इंदरगढ़	16	15,16	5,12	4	6	7	2	8,11	3,14	4	1,4,9	2,10,13	6
27	करही	20	4,7	15,19	4	-	16	1	6,10	5,14,18	5	3,8,9,11,12,20	1,2,13,17	10
28	छितरी	20	1,4,18	2,5,17,19	7	20	-	1	7,10	6,13,14	5	3,8,9,12	11,15,16	7
29	धमधौली	15	2,11	5,6,7	5	-	-	-	9,15	4,12	4	1,10,12	3,8,14	6
30	बहगवा	20	6,9	3,17	4	-	-	-	1,20	10,11,19	5	2,5,7,8,15,16	4,12,13,14,18	11
31	सोहोर	20	1,14	11,12	4	-	-	-	3,8	5,6,9	5	2,7,10,13,19,20	4,15,16,17,18	11
32	कालीपहाड़ी	20	15	10,11	3	-	-	-	12,13	7,14,18	5	1,2,4,6,8,9,16	3,5,17,19,20	12
33	साबली	20	17	18	2	-	-	-	9,19	5,6,11	5	1,2,4,7,8,10,14	3,12,13,15,16,20	13
34	कांकर	20	6,7,12	8,9,10,11	7	-	-	-	3,20	2,15,17	5	1,4,13,16,18	5,14,19	8
35	कैखोदा	14	6	4	2	-	-	-	2,5	11,12	4	8,9,10,13	1,3,7,14	8
36	फूलपुर	16	8,9,14	10,11,12,13,	7	-	5	1	2,4	3,16	4	1,6,15	7	4
37	बिची	12	9	-	1	6	5,7	3	4	1,8	3	3,10,11	2,12	5
38	हलेडा	20	1,14	10,15	4	11	-	1	6,12	3,7,18	5	4,5,13,8,16	2,9,17,19,20	10
39	बडगोर	20	1,12,17	7,11,20	6	-	-	-	10,13	8,15,19	5	2,4,9,6,14	3,5,16,18	9
40	सुनारी	20	13,15	12,14	4	-	-	-	1,16	10,18,19	5	2,3,6,7,11,20	4,5,8,9,19	11
41	भैंसा	16	6,7	5,12	4	-	-	-	11,16	10,13	4	1,2,4,15	3,8,9,14	8
42	परदेड़	20	18	5,6	3	-	-	-	8,17	9,14,20	5	2,3,7,10,15,19,12	1,4,11,13,16	12
43	दौनी	17	9	8,11	3	-	-	-	13,17	2,16	4	3,6,7,12,14	1,4,5,10,15	10
44	दिहायला	20	2,7	5,16,17	5	-	-	-	15,19	11,14,20	5	1,8,9,10,12,18	3,4,6,13	10
45	राजपुर	17	2,3,15	1,4,14	6	-	-	-	6,8	9,17	4	5,7,10,12	11,13,16	7
46	खड़ीया	18	1,11	9,10	4	-	-	-	6,15	8,16	4	2,3,4,5,14	7,12,13,17,18	10
47	नैनागिर	20	1,12	2,8,20	5	-	-	-	17,19	12,15,16	5	3,5,7,9,11,18	4,6,10,14	10
48	फतेहपुर	15	1	2,3	3	-	-	-	8,13	7,15	4	6,9,10,11,12	4,5,14	8
49	सिलरा	17	8,10,12,16,17	3,4,7,11,14,15	11	13	-	1	-	-	-	2,5,6	1,9	5
50	बेरखेडा	18	15,17,18	9,10,14,16	7	12	-	1	4,6	2,3	4	1,11,13	5,7,8	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
51	रमगाढा	11	4,11	3,7,8	5	-	-	-	2	1,5	3	6,9	10	3
52	रामनगर	20	3,8,10,15	4,7,9,16	8	-	-	-	11,17	6,12,20	5	1,2,14,18	5,13,19	7
53	झण्डा	20	2,12	1,13	4	-	-	-	7,16	3,9,15	5	6,8,11,14,18,19	4,5,10,17,20	11
54	समूहा	20	19	20	2	-	-	-	1,14	6,9,10	5	2,3,4,5,7,8,11	17,12,13,15,16,18	13
55	देहरेटाखवला	15	12,14	3,13	4	-	-	-	4,5	7,8	4	1,2,10,11	6,9,15	7
56	दावरभाट	17	1,14	2,13,17	5	-	-	-	6,7	8,11	4	3,4,5,10,12	9,15,16	8
57	चिरली	17	9	1	2	-	-	-	14,16	6,13	4	2,5,8,10,12,15	3,4,7,11,17	11
58	टोरियाकला	15	3,10	4,5,11	5	-	-	-	8,12	1,14	4	2,6,9,15	7,13	6
59	ढुंकरई	14	8,11	6,7	4	12	-	1	14	2,10	3	3,4,5	1,9,13	6
60	टोरियाखुर्द	17	12	10,11	3	-	-	-	2,13	1,17	4	3,6,7,9,15,16	4,5,8,14	10
61	सड्	20	2,4	1,9	4	17	16,18	3	14,19,20	6,15	5	5,8,11,13	3,7,10,12	8
62	रोनीजा	16	1,2,3	4,5	5	-	-	-	7,11	13,14	4	6,8,10	9,12,15,16	7
63	अंदौरा	13	13	8	2	-	-	-	6	7,11	3	1,3,9,10	2,4,5,12	8
64	लमकना	13	6,8	5,7	4	-	-	-	4	9,12	3	1,2,3,13	10,11	6
65	संबुजुर्ग	15	13	7,14	3	-	-	-	2,10	6,12	4	3,4,8,9,11	1,5,15	8
66	बिल्हारीखुर्द	15	11,12	9,10	4	-	-	-	4,13	2,6	4	1,7,8,15	3,5,14	7
67	सनाई	18	14	2,3	3	-	-	-	15,16	13,17	4	5,6,9,10,12,18	1,4,7,8,11	11
68	सहदौरा	13	8	7,9	3	-	-	-	2	6,10	3	1,4,11,12	3,5,13	7
69	भासडाखुर्द	17	4,10	6,11	4	-	-	-	16,17	2,15	4	1,5,7,12,14	3,8,9,13	9
70	भासडाकला	16	1,10,14	2,15	5	-	-	-	7,11	4,9	4	3,6,8	5,12,13,16	7
71	गोघारी	15	15	2	2	-	-	-	8,9	10,12	4	1,3,5,11,13	4,6,7,14	9
72	जनोरी	14	1	2,10	3	13	-	1	11	9,12	3	3,4,5,8	6,7,14	7
73	तालभैव	13	2,12,13	3,8	5	-	-	-	9	5,7	3	1,10	4,6,11	5
74	खुदावली	17	13	11,12	3	-	-	-	3,14	15,16	4	1,2,5,9,10,8	4,6,7,17	10
	योग	1263	129	151	280	23	24	47	133	174	307	346	283	629